

# दैनिक भास्कर



Leave  
No One  
Behind

एसडीजी आंदोलन का समर्थक होना हमारे लिए गौरव की बात है




WE ARE A PROUD SUPPORTER OF SDG MOVEMENT

सबका साथ  
सबका विकास  
सबका विश्वास

राष्ट्रपति कोविंद का मानना है कि आदिवासी - वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश और समाज का विकास नहीं हो सकता और वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कहा है कि आदिवासी-वनवासी समाज के बच्चों की शिक्षा व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करेगी सरकार। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कुछ संभव कैसे होगा? तो वलिय, इस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं...

## ‘वनवासी समाज को और आगे बढ़ाना होगा’

मास्कर न्यूज



सोनभद्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि आदिवासी-वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बाभनी विकास खंड के कारिडाड़, चपकी स्थित सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित सेवा कुंज आश्रम में नवनिर्मित स्कूल और छात्रावास का रविवार को लोकार्पण करने के बाद कोविंद ने कहा, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय पाई थी, उसमें वनवासियों का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार यदि देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र चार प्रदेशों की सीमाओं से घिरा हुआ है और ऐसे स्थान पर स्कूल और छात्रावास संचालित होने से उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के सीमावर्ती इलाकों के वनवासी छात्रों को भी लाभ होगा। कोविंद ने कहा कि वनवासी क्षेत्र उनके लिए तीर्थस्थल जैसे हैं और यदि वनवासी प्रोत्साहित हों तो देश ही नहीं विदेश में भी भारत का नाम रोशन करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से अपेक्षा की कि केंद्र सरकार से तालमेल बिठाकर वनवासियों को आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। कोविंद ने कहा कि भारत की आत्मा वनवासी-आदिवासी क्षेत्रों में बसती है यदि कोई भी इस संस्कृति से परिचित होना चाहता है, तो उसे सोनभद्र जैसे जिलों में समय

बिताना चाहिए। उन्होंने कहा, विलुप्त होती जा रही वनवासी कलाओं के विकास के लिए सेवा समर्पण संस्थान का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार यदि देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा।

कोविंद ने कहा, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय पाई थी, उसमें वनवासियों का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार यदि देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा।

लोकार्पण करने के बाद कोविंद ने कहा, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय पाई थी, उसमें वनवासियों का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार यदि देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा।

किया जाता रहेगा। उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित सेवा कुंज आश्रम परिसर में निर्मित स्कूल, छात्रावास और भोजनालय के भवनों का लोकार्पण किया। यह निर्माण एनटीपीसी रिहंद द्वारा कराया गया है। एनटीपीसी द्वारा लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से 18 कक्षाओं और 24 कमरों के छात्रावास का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त अबाध विद्युत आपूर्ति के लिए 40 किलोवाट का सोलर पावर भी स्थापित किया गया है।


### आदिवासी बच्चों के शिक्षा व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करेगी सरकार : योगी

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोनभद्र के सभी आदिवासी बच्चों के उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपते हुए निर्देश दिया कि पूरे जिले में जो भी वनवासी- आदिवासी समाज के बच्चे हैं, उनका पता लगाकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्होंने घोषणा की कि ऐसे बच्चों के रहने, खाने एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जाएगी। सोनभद्र जिले के कारिडाड़ स्थित सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित सेवा कुंज आश्रम में रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्कूल और छात्रावास का रविवार को लोकार्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आदिवासी-वनवासी समाज के विकास की अपेक्षा की। समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे जिले में जो भी वनवासी, आदिवासी समाज के बच्चे हैं उनका पता लगाकर जिले में अथवा दूसरे जिलों में उनके शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के रहने, खाने एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क की जाएगी। योगी ने कहा कि भारत गांव-गिरांव, आदिवासी एवं वनवासियों, पिछड़ों तथा अनुप्रायित तबके के लोगों का देश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनवासी-आदिवासी सोनभद्र में निवास करते हैं और राज्य सरकार यहां एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। - शेष पेज 10 पर



### तिनसुकिया में गरजे अमित शाह, निशाने पर कांग्रेस

एजेसी/मास्कर न्यूज  
गुवाहाटी। असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बड़े नेता प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को असम पहुंचे और तिनसुकिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर कर निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 15 साल तक यहां कांग्रेस की सरकार थी। आपने यहां से 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री भेजे थे, चाय बागान के लिए आपने क्या किया? हमारी सरकार ने चाय बागान में मजदूरी मुआवजा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 रुपये देना शुरू किया है। अब यह राशि 18,000 रुपये की गई है। चुनावी रैली में बोले अमित शाह, अगले पांच साल में घुसपैठ का काम कर देंगे खतम। असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें 5 साल और दे दीजिए। हमारी सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेगी। हमने सेटेलाइट इमेज से पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े-बड़े सरोवरों और तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। हम बाढ़ मुक्त असम का वादा करते हैं।



अमित शाह बोले, हमें पांच साल और दे दीजिए

### सार संक्षेप

#### अंबानी सुरक्षा मामला : एनआईए ने इनोवा कार जब्त की

मुंबई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी कार मिलने के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अभिकरण एजेसी (एनआईए) ने रविवार को एक सफेद इनोवा कार जब्त की। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह वही इनोवा कार है जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो एसयूवी का पीछा कर रही थी। विस्फोटक से भरी वह स्कॉर्पियो एसयूवी 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर के नजदीक खड़ी की गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इनोवा पर ताड़देव आरटीओ का पंजीकरण नंबर 'एमएच 01 जेड ए 403' है और गाड़ी के पिछली विंडशील्ड पर 'पुलिस' लिखा है। इसे एक वैक की मदद से पेडर रोड स्थित एनआईए के दफ्तर लाया गया है। इससे कुछ घंटों पहले ही मामले में केंद्रीय एजेसी ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मुकेश अंबानी के घर के पास से विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में 12 घंटों की पूछताछ के बाद शनिवार देर रात वाजे को गिरफ्तार किया।

#### मुठभेड़ में एक आतंकी डेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपिया जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकीवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद जिले के रावलपोरा इलाके में सुरक्षाबलों ने शनिवार को घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आतंकीवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि पूरी रात शांति रहने के बाद सुबह दोनों ओर से फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। उन्होंने बताया कि हथियार, गोलाबारूद और अपराध में सलिप्तता साबित करने वाली सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई है।

#### सड़क हादसे में छह कृषि मजदूरों की मौत, आठ अन्य घायल

अमरावती (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नुजिविदु के नजदीक रविवार सुबह एक सड़क हादसे में छह कृषि मजदूरों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग विजयवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर नुजिविदु के नजदीक लियोन टांडा नामक आदिवासी बस्ती के रहने वाले थे और ऑटोरिक्शे से नजदीकी गांव जा रहे थे तभी अज्ञात वाहन ने उनके ऑटो में टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आठ लोग घायल हो गए, जिन्हें नुजिविदु और विजयवाड़ा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नुजिविदु के उप-खंड पुलिस अधिकारी श्रीनिवासुलु ने बताया कि मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, उप मुख्यमंत्री (स्वास्थ्य) एकेके श्रीनिवास, गृहमंत्री एम सुचिन्दा, तेलुगुदेशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जन सेना के अध्यक्ष के पवन कल्याण ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। श्रीनिवास ने कृष्णा जिले के चिकित्सा अधिकारी को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार को सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।

### असम को छोड़कर बाकी चार राज्यों में चुनाव हारेगी भाजपा : पवार

मास्कर न्यूज  
पुणे। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि असम को छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी बाकी चार राज्यों में चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बरामती शहर में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में (कथित रूप से) शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के साथ एक घटक है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं। मर्तों की गिनती दो मई को होगी। उन्होंने कहा, '...पांच राज्यों में चुनाव परिणाम के बारे में आज बात करना गलत है, क्योंकि इन राज्यों की जनता इस बारे में निर्णय करेगी। जहां तक केरल का सवाल है, वाम दल और राकांपा एक साथ आए हैं और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा।' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोग द्रमुक एवं इसके अध्यक्ष एम के स्टालिन का समर्थन करेंगे और वे लोग सत्ता में आएंगे। राकांपा प्रमुख ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में, केंद्र, खास कर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक बहन (मुख्यमंत्री ममता



पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग कर रही भाजपा

बनर्जा का हवाला) पर हमला करने का प्रयास कर रही है, जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है।' उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि ममता बनर्जा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (चुनाव के बाद) सत्ता में बनी रहेगी।' पवार ने कहा कि असम की स्थिति से वह अलग हैं और उनकी पार्टी के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वहां सत्तारूढ़ भाजपा दूसरों की तुलना में 'अच्छी स्थिति' में है। उन्होंने कहा, 'कुल मिला कर भाजपा असम में सत्ता में बनी रहेगी लेकिन अन्य चुनावी राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी।' उन्होंने कहा, 'मुझे केंद्र, खास कर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग दिशा मिलेगी।'

### भारत में कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले

मास्कर न्यूज  
संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,59,048 हो गई

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के रविवार को 25,320 नए मामले सामने आए, जो पिछले 84 दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,59,048 हो गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को संक्रमण के 26,624 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 के कारण रविवार को 161 लोगों की मौत हो गई, जो पिछले 44 दिन में सर्वाधिक मृतक संख्या है। देश में संक्रमण के कारण अब तक कुल 1,58,607 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 2,10,544 लोग उपचारार्थ हैं, जो कुल संक्रमितों का 1.85 प्रतिशत है। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर शनिवार को 96.82 प्रतिशत थी, जो रविवार को गिरकर 96.75 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों के अनुसार, देश में 1,09,89,897 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं, जबकि मृत्युदर 1.40 प्रतिशत बनी हुई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के पार चले गए थे।



## होशियार बनें!

अधिकृत संस्थाओं से ही ऋण लें।

अधिकृत संस्थाओं से ही ऋण क्यों लेना चाहिए:

- बैंक और रजिस्टर्ड फाइनेन्स कंपनियाँ आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं
- सही कार्यप्रणाली का पालन न करने पर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है

आरबीआई कहता है... वित्तीय अनुशासन, चिंता मुक्त जीवन

जनहित में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

इस संदेश पर फीडबैक देने के लिए, rbikehrai@rbi.org.in को लिखें

रबीआई कहता है... वित्तीय अनुशासन, चिंता मुक्त जीवन

जनहित में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

इस संदेश पर फीडबैक देने के लिए, rbikehrai@rbi.org.in को लिखें



लाल किला

# पूर्वी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन नहीं आया पानी, लाखों लोग परेशान

► विकास मार्ग पर पाइप लाइन बदलने का काम चलने के कारण दिक्कत

भास्कर न्यूज

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के दर्जनभर से अधिक इलाकों के लोगों को रविवार सुबह भी पानी नहीं आया, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। विकास मार्ग पर पाइप लाइन बदलने का काम चलने के कारण यह दिक्कत आई है। लगातार तीसरा दिन हो गया है, जब रविवार सुबह पानी नहीं आया, जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने दावा किया था कि रविवार सुबह पानी की आपूर्ति सुचारु हो जाएगी। इस बीच कहा जा रहा है कि पाइप लाइन का काम ठीक कर लिया गया है, ऐसे में रविवार शाम तक सभी इलाकों में पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। वहीं, पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार को भी पानी नहीं आने से दिक्कत बढ़ गई है।

पानी की भारी कमी के चलते लोगों ने बोटलबंद की खरीदारी बढ़ा दी



लगाते हुए टिवट किया है- 'पूर्वी दिल्ली में पानी की भयंकर किल्लत। शुक्रवार सुबह @DelhiJalBoard का पानी आया था। पीने के पानी के लिए बीस लीटर वाला बोटल बंद भी दुकानों पर खत्म हो गया तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। @msisodia जी जरा इधर भी गौर करें। जलापूर्ति सामान्य नहीं होने के चलते पूर्वी दिल्ली में पानी के टैकों की मांग बढ़ गई है। रविवार सुबह से लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैकों में फोन पर पानी के टैकों के लिए मांग करते रहे, वहीं महकमा भी पानी के टैकों को भिजवाने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। शुक्रवार सुबह से ही पानी की दिक्कत का सामना कर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 24 घंटे तक यानी शनिवार सुबह तक पानी की आपूर्ति बाधित होने की बात कही थी, लेकिन शनिवार शाम तक लोगों को परेशानी से रूबरू

**गौतम गंभीर ने किया ट्वीट**  
सांसद गौतम गंभीर ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है। अगर पाइपों की मरम्मत का काम चल भी रहा है तो कम से कम वाटर टैंकर तो भिजवा दीजिये, मुख्यमंत्री जी!

**इन इलाकों में है पानी की किल्लत**

शकरपुर, लक्ष्मी नगर, मंगल बाजार, गणेश नगर, स्कूल ब्लॉक, पांडव नगर, दक्षिणी गणेश नगर, मंडावली, गणेश नगर कॉम्प्लेक्स, समसपुर, मयूर विहार फेज - 1, 2 व, त्रिलोकपुरी

होना पड़ा। इस बीच सूचना आ रही है कि पाइपलाइन ठीक करने का काम पूरा हो गया है और रविवार सुबह पानी की आपूर्ति सुचारु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि इससे पहले 8 मार्च से 9 मार्च तक रिविंदर रंग शाला, CRPC कॉम्प्लेक्स, पुलिस वायरलेस, ओल्ड

राजिंदर नगर, सर गंगा राम अस्पताल, WEA क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, बवाना, सुल्तानपुर डबास, पृष्ठ खुर्द, बरवाला, माजरा डबास, चांदपुर, वार्ड 35 कंदावला के तहत क्षेत्र, वार्ड 36 रानी खेरा और आसपास के इलाकों में

पानी की आपूर्ति प्रभावित थी। भागीरथी जल उपचार संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि शुक्रवार से अगले 24 घंटे तक ही पानी की दिक्कत रहेगी, लेकिन यह शनिवार को भी जारी है। वहीं, जानकारी सामने आई है कि शनिवार देर शाम तक पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी।

**एमसीडी चुनाव जीती को दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाएगी 'आप'**

दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम में जीत दर्ज करती है तो वह राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ और विश्व स्तर का शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अब नगर निकाय पर काबिज होने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है। नगर निगम के पार्टी प्रभारी पाठक ने कहा कि जीतने पर यह भावना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को नगर निगमों में भी मौका मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की पांच सीटों पर हुए चुनाव में चार सीटों पर आप को जीत मिली थी। आप के पक्ष में काम करने वाले तथ्यों के बारे में बात करते हुए पाठक ने कहा कि नगर निगम में सत्ता विरोधी भावना होने के साथ-साथ लोग आप के कार्यों से भी प्रभावित हुए हैं।

करने में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए अगर 'आप' सरकार आती है तो हम दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नगर निगमों में भ्रष्टाचार कम करेगी। उप चुनाव के नतीजों का संदर्भ देते हुए पाठक ने कहा कि आप ने भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली सीटों और अन्य पर भी उपचुनाव जीते हैं, आप के जीत का अंतर बढ़ा है। पाठक ने कहा, "हमें जमीन से संदेश मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को नगर निगमों में भी मौका मिलना चाहिए।" उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की पांच सीटों पर हुए चुनाव में चार सीटों पर आप को जीत मिली थी। आप के पक्ष में काम करने वाले तथ्यों के बारे में बात करते हुए पाठक ने कहा कि नगर निगम में सत्ता विरोधी भावना होने के साथ-साथ लोग आप के कार्यों से भी प्रभावित हुए हैं।

## साईं भक्तों ने कोरोना जांच कराई

भास्कर न्यूज

नई दिल्ली। घोण्डली गांव में साईं भक्त सभा ने न्यू गांव विंदपुरा 18 मार्च को 125 साईं भक्त महिलाओं को शिराडी के साईं बाबा का दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। साईं भक्त महिलाओं का इस दौरान कोरोना चेकअप कराया गया। दरअसल कोरोना महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। जिस कारण भक्तों का कोरोना जांच कराना जरूर था कि कोरोना दूसरे लोगों में न फैल सके और लोग सुरक्षित रहे। साईं भक्त सभा की ममता सचदेवा ने बताया कि हर साल साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार 125 महिलाओं को



साईं दर्शन के लिए लेकर जा रहे हैं। आज इन सभी महिलाओं को कोरोना की जांच कराई और कहा कि साईं बाबा के दरबार में सभी भक्त सुरक्षित पहुंचें और साईं बाबा का

दर्शन कर सकें। इसके लिए कोरोना की जांच कराई गई है। इस मौके पर राजू सचदेवा, ममता सचदेवा, रोहित गुप्ता, कमल टुटेजा, सुमित, धर्मेंद्र, रामपाल आदि लोग मौजूद रहे।

## समाज को पारदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता: दीपक पांडिया

भास्कर न्यूज

नई दिल्ली। हम एक ऐसे समाज और राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी महसूस करे कि देश के प्रत्येक विकास में उसकी भी अहम भूमिका और हिस्सेदारी है। लोकतंत्र की गुंज और राष्ट्र उल्थान में उसके पसीने की गंध का भी मोल हो, तभी सही मायने में लोकशाही का राम-राज्य स्थापित हो सकेगा। एक ऐसा समाज जो पारदर्शी नेतृत्व, आधुनिक तकनीक और नेक नीयत के साथ बुजुर्गों का सम्मान, स्त्रियों की सुरक्षा और नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी देता हो, यह कहना था



राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के कन्वीनर एडमिन दीपक पांडिया का। उन्होंने कहा कि जहां सरकार दाता के अहंकार में और जनता याचक के रूप में न हो, अपितु सरकार अपना दायित्व निर्वहन करते हुए प्रत्येक

नागरिक के घर-द्वार तक सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के लॉन्च के अवसर पर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का

चयन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर वीके खन्ना को चीफ कन्वीनर, दीपक पांडिया को कन्वीनर एडमिन, एनके शर्मा को कन्वीनर फाइनेंस, डॉ. एलसी शर्मा को मेटेोर और रेणु नेगी को कन्वीनर मीडिया रिलेशन नियुक्त किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में जेपी सिंह, अलोक कुमार, आईएएस रिटायर्ड गौतम मारवाह, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता शामिल हुए। एनके शर्मा ने कहा कि आज की स्थितियाँ इतनी बदल चुकी हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्र पूरी तरह नवीन और भिन्न हो चुके हैं।

ऐसे में हमारी सदियों पुराने प्रशासनिक ढांचे पर आधारित राजनीति पूरी तरह बेमानी साबित हो चुकी है। पार्टी के मेटेोर डॉ. एलसी शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है नए परिपेक्ष्य में नई सोच और नेतृत्व को आगे लाना, व्यवस्था में नई सहयोगात्मक एवं विकासवादी सोच एवं शासन प्रणाली की रणनीति का प्रादुर्भाव, समुचित एवं अधिकतम तकनीक आधारित शासन व्यवस्था, जिम्मेवारी एवं आमजन में प्रसन्नता एवं मुस्कान के लिए सेवाएं, शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों, पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय करना आदि प्रमुख हैं।

## हरियाणा - आसपास

## निसिंग में नगर खेड़ा पर हवन व विशाल भंडारे का आयोजन

भास्कर न्यूज

करनाल। शहर में नगर खेड़ा सेवा समिति की ओर से समस्त शहरवासियों के सहयोग से नगरखेड़ा पर हर वर्ष की भांति रविवार को हवन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुतियाँ डालकर पुण्य का लाभ लिया। हर वर्ष की भांति आज पूरे शहरवासियों की ओर से दादा खेड़ा पर हवन करने के बाद भजन किया गया। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर खेड़ा प्रधान नरेश गंग व सचिव कृष्ण दुध्यान ने बताया कि हजारों वर्षों से शहर वासी वार्षिक उत्सव करते आ रहे हैं। नगरखेड़ा गांव व शहर की सुरक्षा का प्रतीक है। वार्षिक उत्सव में हर कोई भाग लेकर अपने परिवार



के मंगल कामना करता है। नगरखेड़ा सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। उन्होंने बताया कि नगरखेड़े के आयोजन में सभी धर्मों व जातियों

के लोग मिलजुल कर सहयोग करते हैं। दुध्यान ने कहा कि शहर दादा खेड़ा के कारण बसा है, हम समस्त क्षेत्र वासी दादा खेड़ा का सम्मान



करते हैं। इस मौके पर इस मौके पर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर प्रधान लाला रोशन लाल गोयल पृथ्वी शर्मा, श्रवण कुमार, चरणजीत सिंह, डा.

राधे श्याम गुप्ता, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, सुमित ठाकुर, अनिल शर्मा, सुरेश एडवोकेट, विनोद शर्मा सहित अन्य ने सहयोग दिया।

## श्रीमद्भगवद् कथा के शुभारंभ पर सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश शोभायात्रा



गांव अमपुर में श्रीमद्भगवद् कथा के आयोजन पर कलश शोभायात्रा निकालती महिलाएं व अन्य ग्रामीण।


करनाल। गांव अमपुर माजरा स्थित श्री राधा कृष्ण आदर्श गोशाला प्रांगण में गोप्रास हेतु आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भगवद् कथा के आयोजन पर रविवार को पहले दिन सैकड़ों महिलाओं ने सुंदर झांकियों से सुसज्जित कलश शोभायात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का आयोजन गोशाला संचालक गोपाल गोस्वामी, गोशाला प्रधान प्रवीण गंग व पूर्व प्रधान रामकुमार गंग की अगुवाई में आयोजित की जा रही है। शोभायात्रा में फूलों से सजी पालकी में सवार बालरूप भगवान कृष्ण के समक्ष माथा टेक श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। शोभायात्रा को शिव मंदिर से शुरू कर गांव की मुख्य

गलियों से गुजरकर गोशाला में विश्राम दिलाया गया। कथा वाक्य कुलदीप कृष्ण महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का महात्म सुनाया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद् कथा जीव को दुर्लभ मोक्ष प्रदान करती है। कथा के श्रवण से महापातकी दुष्ट दुंधुकारी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने बताया कि वृंदावन में भक्ति महारानी बैठी हुईं रो रहीं थी। उसके दोनो बेटे जान एव वैराग्य बूढ़े हो गए थे। तब नारद मुनि ने सनातनिक ऋषियों के पास जाकर सारा वृत्तंत सुनाया। श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रीमद्भगवद् कथा सुनाई जिसको सुनकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई।

## डॉ कंवल नयन कपूर की लंबी कविता 'खेला अभी जारी है' पर हुई परिचर्चा

भास्कर न्यूज

यमुनानगर। लंबी कविताओं की रचना की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए सुप्रसिद्ध रचनाकार एवं साहित्यिक जीवन में विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत डॉक्टर कंवल नयन कपूर ने एक और रचना 'खेला अभी जारी है' लिखी है। इस संदर्भ में उन्होंने निवास स्थान पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। मौके पर साहित्यिक जीवन से जुड़े कई महानुभाव उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर कंवल नयन कपूर की 'खेला अभी जारी है' लंबी कविता रचना पर समीक्षा की गई तथा सभी साहित्यकारों ने कविता को सुनने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बारे में जानकारी देते हुए साहित्यकार डॉक्टर कंवल नयन कपूर ने कहा कि यह कविता प्राचीन पुराणों में अंकित है परंतु वास्तव में इस



डॉ कंवल नयन कपूर सुप्रसिद्ध साहित्यकार

आधारित है नकारात्मक और सकारात्मक इंसान अपनी उत्तपत्ति से लेकर अंत जीवन के वास्तविक लक्ष्य से विमुख रह जाता है यदि लक्ष्य का बोध हो जाएगा तो समाज में व्याप्त सभी समस्याओं का निदान निश्चित रूप से हो सकता है। उन्होंने कहा कि कविता में जिस प्रकार एक 15 साल के बालक की बलि उसका पिता स्वार्थ सिद्धि से वशीभूत होकर देने के लिए तयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में हम मनुष्य भी लोभ और मोह से ग्रसित हो कर अपने नैतिक कर्म और व्यवहार से कोसों दूर हो चुके हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर कंवल नयन कपूर की सभी रचनाएं समाज में एक संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही हैं और डॉक्टर कपूर का उद्देश्य भी यही है कि उनकी प्रत्येक रचना समाज व्याप्त इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान करते रहे।

## अटल सेवा केन्द्रों पर आम आदमी को मुहैया करवाई जा रही हैं अनेकों सुविधाएं



भास्कर न्यूज

करनाल। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव में ही मिल रहा है। ऐसे ही गांव डाचर स्थित देवराज अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीण के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। देवराज ने बताया कि गांव में अभी तक करीब 300 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

इसके साथ ही ग्रामीण विभिन्न प्रकार की योजनाओं का पंजीकरण करवा रहे हैं। ग्रामीणों पर ईशम शर्मा जोगा सिंह पाई, जोगा कौता, दीपक प्रजापत, रामेश्वर, सोनू सेवा राम सहित अन्य ने बताया कि सरकार को इस पहल से हर पात्र व्यक्ति को पूरा लाभ मिल रहा है। अटल सेवा केंद्र कार्य संचालक देवराज ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता को एक ही छत के नीचे

सभी जरूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए अटल सेवा केंद्रों पर आम आदमी को अनेकों सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। पैशन व विवाह पंजीकरण संबंधी फार्म भरने अथवा आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने जैसे कामों के लिए जिला मुख्यालय के अब ग्रामीणों को चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब निर्धारित समयविधि में लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

## नरुखेड़ी गांव में हवन व विशाल भंडारे का आयोजन, लोगों ने डाली आहुतियाँ

करनाल। गांव नरुखेड़ी में रविवार को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समस्त ग्रामीणों के सहयोग से नगरखेड़ा पर हवन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने आहुतियाँ डालकर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीणों सहित अन्य दूसरे गांव के श्रद्धालुओं ने पहुंचे भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। पूर्व सरपंच सुरजीत नरवाल ने बताया कि रविवार को गांव की सुख समृद्धि के लिए सभी ग्रामीणों के सहयोग से नगरखेड़ा पर सुबह 7 बजे हवन यज्ञ व सुबह 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच नरेंद्र नरवाल, दलबीर सिंह, पूर्व सरपंच संदीप नरवाल, महा सिंह, शमशेर नरवाल, संदीप नरवाल, बिल्लू नरवाल, सुमेरु शर्मा, डा. रमेश, जरनैल सिंह, सुरेंद्र, अजय सहित नर बाबा कमेटी के सभी सदस्यों सहित अन्य ग्रामीणों ने सहयोग दिया।

**कमरे में घुसकर छात्र पर हमला, मामला दर्ज चंडीगढ़।** पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने सेक्टर 15 स्थित छात्र के घर पर घुसकर डंडों और हॉकी से हमला कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्र को सेक्टर 16 जनरल अस्पताल में दाखिल करवाया। घायल की पहचान सेक्टर 15 निवासी साहिल यादव के रूप में हुई। सेक्टर 11 थाना पुलिस से साहिल यादव की शिकायत पर हमलावर संकित लाटर, साहिल लाटर और इंदरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सेक्टर 15 निवासी साहिल यादव ने पुलिस को दो शिकायतें में बताया कि 12 मार्च को वह अपने कमरे में बैठा हुआ था। इतने में डंडों और हॉकी से लैस होकर कमरे में घुसकर हमला कर फरार हो गया। घायल साहिल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया। साहिल ने बताया कि कुछ महीने पहले उक्त आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया था। आरोपियों ने उसपर मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। इसी रंजिश के चलते उक्त आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया। सेक्टर 11 थाना पुलिस ने उक्त हमलावरो पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी।



# लिफ्ट देकर सवारियों को लूटने वाले गिरफ्तार

भास्कर न्यूज

नोएडा। थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने लिफ्ट देकर सवारियों से लूटपाट करके उनके डेबिट कार्ड की डिटेल्स लेकर खाते से रुपये निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के पांच बदमाशों को रविवार को शाहपुर गोवर्धनपुर सेक्टर-128 तिराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी नोएडा और दिल्ली में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं।



एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कार में सवार बदमाश सेक्टर-128 के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान दिलीप कुमार निवासी पुरानी मंडी ताजगंज गुमर

आगरा, मनीष कुमार उर्फ मोनु निवासी गांव बाजरपुर ग्रेटर नोएडा, शिवम उर्फ सन्नी निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली, विक्रम निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली और सागर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों से दो तमंचे, दो कारतूस, दो चाकू और वारदात में इस्तेमाल दो कार, 25

हजार रुपये, साढ़े पांच किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपियों ने बताया कि वह सवारियों को लिफ्ट देकर अपनी कार में बैठाते थे। इसके बाद एक्सप्रेसवे या अन्य सुनसान जगह पर ले जाकर तमंचा और चाकू के बल पर लूटपाट करते थे। इसी दौरान आरोपी पीड़ितों से उनके डेबिट कार्ड की डिटेल्स लेकर खाते से रुपये निकाल लेते थे। फिर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाते थे। दिल्ली सराय काले खां से बैठाते थे सवारी : आरोपी दिल्ली सराय काले खां बस अड्डे से

सवारियों को बैठाते थे। इसके बाद नोएडा में आने के लिए हर बार अलग बॉर्डर से प्रवेश करते थे ताकि पुलिस की गिरफ्त में न आए। आरोपी कभी डीएनडी तो कभी चिल्ला बॉर्डर से नोएडा में आते थे। आरोपियों ने दिल्ली में भी कई वारदात की हैं। उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। पृष्ठताछ में खुलासा किया कि वह 20 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं।

गांजे की तस्करी भी करते थे : लूटपाट और धोखाधड़ी के अलावा आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते थे। वह सवारियों की आड़ में कार के अंदर गांजा लेकर आते थे। इससे पुलिस को भी उन पर शक नहीं होता था। इसके बाद गांजे को झुग्गी झोपड़ी में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों की कार से साढ़े पांच किलो गांजा मिला है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

## प्लास्टिक मुक्त हुआ सेक्टर 55-56 का साप्ताहिक बाजार



नोएडा। सेक्टर 55-56 की सड़क पर लग रही साप्ताहिक मार्केट प्लास्टिक मुक्त हो गई है। रविवार को नोएडा प्राधिकरण के चरिष्ठ परियोजना अभियंता एस सी मिश्रा ने एडीसीपी रणविजय सिंह और एचसीएल फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों का उत्साहवर्द्धन किया। एचसीएल फाउंडेशन के अधिकारियों ने मार्केट में 800 कपड़े के थैले का वितरण किया। समाजसेवी शैल माथुर पिछले कई सालों से दुकानदारों को प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाने के लिए अनुनय-विनय कर रही थीं। अधिकार उन्की मेहनत रंग लाई और मार्केट प्लास्टिक मुक्त हो गई।

## युवती ने छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की जमकर धुनाई की



भास्कर न्यूज

नोएडा। सेक्टर-12 में युवती ने छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की जमकर धुनाई कर की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने युवती की तलाश कर उसके बयान दर्ज किए हैं। सोशल मीडिया पर शनिवार को वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवती छेड़छाड़ करने के आरोपी की धुनाई कर रही है। आरोपी युवती से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है।

इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने खानवीन की तो सामने आया कि यह वीडियो सेक्टर-12 स्थित मदन डेयरी के सामने का है। फिर पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद जानकारी मिली कि युवती किराए पर झुंडपुरा में रहती है। इसके बाद एसीपी रजनीश वर्मा सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती के बयान दर्ज किए। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

## सेक्टर 20 में दो भाइयों के परिवार मिड़े

नोएडा। सेक्टर-20 में शनिवार रात दो सगे भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। परिवार की एक महिला ने अपने जेट के हाथ की अंगुली पर काट लिया। इससे उसकी अंगुली में गहरा घाव हो गया। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है। थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर-20 में रहने वाले दो सगे भाइयों के बीच संपत्ति सहित अन्य मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर रात करीब 8 बजे दोनों भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक भाई की पत्नी ने अपने जेट की अंगुली पर काटकर उसे घायल कर दिया।

युवक का शव मिला नोएडा। सेक्टर-52 स्थित पेट्रोल पंप के पास झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव पर चोट के निशान हैं। आशंका है कि युवक को हत्या कर शव को फेंका गया है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के दहिने हाथ पर भूरा नाम व जय शनि देव लिखा है। मृतक की उम्र करीब 27 वर्ष है।

# पहले जीतते थे भरोसा, फिर करते थे ठगी

भास्कर न्यूज

नोएडा। साइबर सेल ने जालसाजों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो पहले तो लोगों को उपहार देकर उनका विश्वास जीतते थे फिर फिर बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी कर लेते थे। पुलिस ने इस गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सरगना समेत तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। इन जालसाजों की गिरफ्तारी संजय नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ पिछले साल हुई 20 लाख की ठगी के मामले में हुई है।

## व्या बरतें सावधानी

- कभी भी बीमा पॉलिसी किसी जानने वाले एजेंट के जरिए ही कराए
- पॉलिसी लेते समय ध्यान रखें कि वह ईरडा द्वारा अधिकृत बैंक का हो
- अपने दस्तावेज अधिकृत बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को ही दें
- पॉलिसी के लिए कभी भी ब्लैक चेक न दें

बदमाशों से पृष्ठताछ में पता चला है कि ये अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों के साथ इस तरह की ठगी कर चुके हैं। साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि साइबर सेवा समाधान केंद्र पर संजय नगर के रहने वाले सराफ जमाल कुरैशी ने नौ मार्च को शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया था कि जालसाजों ने उनसे पिछले साल जुलाई में संपर्क किया था। आरोपियों ने उन्हें भरोसे में लेने के लिए दो बीमा पॉलिसी कर

दीं। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें उपहार में एक सोने की चेन भी दी। वहीं जब उन्हें आरोपियों पर भरोसा हो गया तो आरोपी तीसरी बार दिसंबर 2020 में उनके घर पहुंचे और एक बार फिर बहुत अच्छी बीमा पॉलिसी का झांसा देकर उन्हें राजी कर लिया। फिर इसके प्रीमियम के नाम पर आरोपियों ने उनसे छह ब्लैक चेक ले लिए। करीब एक सप्ताह बाद उन्हें पता चला कि आरोपियों ने उनके बैंक खाते से इन चेक के माध्यम से 20 लाख 17 हजार रुपये निकाल लिए हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस में शिकायत दी,

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी चक्कर काटने के बाद उन्होंने साइबर सेवा समाधान केंद्र में शिकायत दी। इसके बाद साइबर सेल ने आरोपियों को ट्रेस कर मुधबन बापूधाम कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी की और शनिवार की देर शाम उन्हें पुराना बस अड्डा के पास से दबोच लिया। आरोपियों की पहचान बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली के रहने वाले देशराज और जयराज हर्दो चौक, नैनीताल के रहने वाले कमल सिंह रूप में हुई है। पुलिस ने इनके तीन अन्य साथियों की भी पहचान कर ली

## बीमा पॉलिसी के नाम पर इस तरह से करते थे ठगी

है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते थे आरोपी : साइबर सेल प्रभारी ने बताया कि आरोपी खुद को पीएनबी मेटलाइफ बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बता कर लोगों से संपर्क करते थे। चूंकि वह खुद किसी बीमा कंपनी में काम नहीं करते थे, इसलिए अपने शिकार की एक दो पॉलिसी किसी अन्य एजेंट के माध्यम से करा देते थे। इससे लोगों का उनके ऊपर भरोसा हो जाता था। रही सही कसर पॉलिसी होने के एक महीने बाद सोने की चेन या अन्य सामान उपहार में देकर पूरी कर लेते थे। दो दर्जन से अधिक वारदात का खुलासा : आरोपियों ने पुलिस की पृष्ठताछ में बताया कि उनके युग

में शामिल सभी पांच लोग स्नातक हैं और करीब दो साल से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को दो दर्जन से अधिक वारदात गिनाए हैं, जो इन्होंने हाल फिलहाल में अंजाम दी हैं। इन सभी वारदातों के संबंध में गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर आदि जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों का सत्यापन कर रही है। तीन महीने से पीड़ित काट रहा था चक्कर : पीड़ित ने बताया कि उसके साथ यह वारदात दिसंबर 2020 में हुई। उन्होंने तुरंत कविनगर पुलिस को शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी को शिकायत दी। एसएसपी ने यह शिकायत क्षेत्राधिकारी द्वितीय को भेज दी। फिर वहां से मामला मुधबन बापूधाम थाने में आया। तब से पुलिस मामले की जांच ही कर रही है, अब तक मुकदमा नहीं दर्ज हो सका था। आखिर में थकहार कर उसने साइबर सेवा समाधान केंद्र पर शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है।

## यमुना एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग शुरू कराने के लिए आज होगा करार

नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब आप फास्टैग से ही टोल भर पाएंगे। इस सुविधा को शुरू करने के लिए सोमवार को यमुना प्राधिकरण में अनुबंध होगा। इसके बाद यह सुविधा शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी फास्टैग की सुविधा नहीं है। यात्रियों को नकद भुगतान करके टोल पार करना होता है। अब यह व्यवस्था बदलने वाली है। एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर सोमवार को यमुना प्राधिकरण के दफ्तर में आईडीबीआई बैंक, प्राधिकरण और जेपी इंफ्राटेक के बीच अनुबंध होगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा शुरू हो सकेगी। फिर यात्री फास्टैग से ही टोल पार कर सकेंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि सोमवार को अनुबंध होने के बाद जल्द से जल्द यह सुविधा शुरू कराई जाएगी।

## ठगी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज

नोएडा। पुलिस ने मेवे और मसालों के नाम पर ठगी करने के मामले में वांछित दो आरोपियों को शनिवार रात को उपल साउथ गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों से खाद्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने 11 जनवरी को सेक्टर-50 में मधुदूत सोसाइटी निवासी मोहित गोयल, राजस्थान के जयपुर निवासी ओमप्रकाश जागिड सहित सुमिता नेगी और अमरजीत को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सेक्टर-62 स्थित कोरैयम टावर में दुबई ड्राई फ्रूट्स एंड स्वाइस हब नाम से फर्नीट्रिंग कंपनी बना रखी थी। ये लोग देशभर की फर्नी से मेवे, तेल और मसाले खरीदते थे। फर्म संचालकों का विश्वास जीतने के लिए करीब 40 प्रतिशत कैश एडवांस के रूप में दे देते थे। फिर उनसे लाखों रुपये के मेवे व अन्य सामान लेकर पैसे नहीं देते थे। इस मामले में पुलिस अभी तक करीब आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडीसीपी

रणविजय सिंह ने बताया कि अब पुलिस ने मामले में वांछित आकाश दीप शर्मा उर्फ हैरी निवासी उपल साउथ एंड सोहना रोड गुरुग्राम और पंकज प्रकाश निवासी आनंद गार्डन गुरुग्राम को गिरफ्तार किया है।

गुरुग्राम में फर्नी कंपनी चलाकर धोखाधड़ी कर रहे थे : एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने गुरुग्राम की कंपनी खोली थी।

यह कंपनी आरोपियों ने नोएडा में फर्नीवाड़े का खुलासा होने के बाद खोली थी। आरोपी आकाश के खिलाफ विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के 10 और दूसरे आरोपी के खिलाफ नौ केस दर्ज हैं।

मास्टरमाइंड का सुराग नहीं : इस मामले के मास्टरमाइंड सुमित यादव का अभी तक कोई एके पांटे ने कहा कि परिवहन नोएडा, भास्कर न्यूज। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री न होने पर सैकड़ों सोसायटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। यह मामला

## बिल्डर के खिलाफ निवासियों ने किया प्रदर्शन



नोएडा, भास्कर न्यूज। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री न होने पर सैकड़ों सोसायटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। यह मामला

बिसरख थाना क्षेत्र के सुपरटेक इकोविलेज सोसाइटी का है। जहां निवासियों ने ताली-धाली बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बिल्डर पर आरोप है कि कई साल

बीतने के बावजूद उसने अवतक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों निवासियों ने मार्केटिंग ऑफिस को बंद करवा दिया।

## प्लॉट बेचने के नाम पर एक करोड़ हड़पने वालों पर केस

भास्कर न्यूज

नोएडा। गुरुग्राम में करीब 10 हजार वर्ग फीट जमीन बेचने के नाम पर 1 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में चार महिला सहित पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसको लेकर पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। अब कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत में गुरुग्राम के सेक्टर-31 निवासी कपिल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में जेएमडी मेगा सोहना रोड गुरुग्राम में करीब 10 हजार वर्ग फीट जमीन खरीदने के लिए दिल्ली के सूरजमल से संपर्क किया था। इसके बाद राजदीप से बातचीत हुई। मार्च 2019 में एक सीए ने नोएडा के सेक्टर-24 में चार खिला सेमत कुल पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

## कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

में जमीन बेचने का सौदा किया। कपिल ने एडवांस के तौर पर उन्हें करीब एक करोड़ रुपये दे दिए। पीड़ित का आरोप है कि पैसे लेने के बाद राजदीप ने एग्रीमेंट नहीं किया। जब कपिल ने खानवीन की तो पता चला कि प्लॉट राजदीप की सास, पत्नी व साली के नाम पर है। आरोप है कि सभी ने मिलीभगत करके ठगी की है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई। अब कोर्ट के आदेश पर थाना सेक्टर-24 में चार खिला समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

## चोरी कर भाग रहा आरोपी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज

नोएडा। दिल्ली से प्लास्टिक का दाना चोरी कर भाग रहे चोर को सूरजपुर पुलिस ने शनिवार देर शाम गिरफ्तार किया। उसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए चोर को पहचान इमरान निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई है जबकि उसके दो अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने यह माल दिल्ली से चोरी किया था। वह चोरी के माल को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

## नाम परिवर्तन

मैं मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री निशांत शर्मा निवासी प्लॉट नंबर ए-2/118 पश्चिम विहार दिल्ली -63, ये सूचित करती हूँ कि शादी से पहले मेरा नाम मीनाक्षी भंडारी था और शादी के बाद मीनाक्षी शर्मा है। अतः यह माना जाए कि मीनाक्षी शर्मा और मीनाक्षी भंडारी एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो सभी दस्तावेजों में मान्य हो।

## नाम परिवर्तन

मैं मोहम्मद वकील पुत्र मोहम्मद सलीम पता A-16/7 प्रेम नगर- तृतीय, नियर इलहामी मस्जिद किरारी सुलेमान नगर नई दिल्ली- 11086 का निवासी हूँ। मैंने अपना नाम वकील से बदलकर मोहम्मद वकील कर लिया है। भविष्य में मुझे मोहम्मद वकील के नाम से जाना और पहचाना जाए।

## ड्राइविंग टेस्ट के लिए 20 दिन बाद का मिल रहा समय

भास्कर न्यूज

नोएडा। परिवहन विभाग ने स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का टाइम स्लॉट घटाकर आधा कर दिया है। ऐसे में 22 दिन बनवाने के लिए 20 से 22 दिन बाद का समय लोगों को दिया जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर आवेदन की सुविधा है। ऑनलाइन दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद आवेदक को टाइम स्लॉट मिलता है। इस टाइम स्लॉट पर परिवहन विभाग में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। फरवरी तक रोजाना करीब 150 लोग टाइम स्लॉट बुक कर सकते थे, जिसे अब घटाकर 75 कर दिया गया है। इस

- ▶ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस का टाइम स्लॉट घटाकर आधा किया
- ▶ पहले रोज 150 आवेदकों को टाइम स्लॉट दिया जा रहा था, अब इसे घटाकर 75 किया

कारण जहां पहले लोगों को आवेदन के अगले दिन का टाइम स्लॉट मिल रहा था, वहीं, अब 20 से 22 दिन बाद का समय बुक हो रहा है। सेक्टर 53 निवासी आकाश ने बताया कि उनके लॉनिंग लाइसेंस को छह माह पूरे होने वाले हैं। उन्होंने स्थाई डील के लिए आवेदन किया था। अप्रैल की तारीख मिली है। शुक्रवार को परिवहन विभाग जल्द टाइम स्लॉट

देने का निवेदन लेकर गया था, लेकिन कर्मचारियों ने ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी देकर लौटा दिया। वहीं, एआरटीओ प्रशासन के कारण प्रतीक्षा अधिक थी। अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। संभव है कि एक से दो महीने में प्रतीक्षा कम हो जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस : कंप्यूटर परीक्षा में पास होने के बाद लॉनिंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, नवीनीकरण और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के दिए गए पते पर पहुंचता है।

इंतजार करना पड़ रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद करीब डेढ़ महीने बाद का टाइम स्लॉट मिल रहा है। हालांकि, बीते साल नवंबर-दिसंबर में तीन महीने की प्रतीक्षा थी। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि लॉकडाउन से पहले और उसके बाद में बड़ी संख्या में लॉनिंग लाइसेंस के लिए आवेदन हुए थे। आवेदनों की काफी संख्या के कारण प्रतीक्षा अधिक थी। अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। संभव है कि एक से दो महीने में प्रतीक्षा कम हो जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस : कंप्यूटर परीक्षा में पास होने के बाद लॉनिंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, नवीनीकरण और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के दिए गए पते पर पहुंचता है।

## 8 हजार लोगों को लगेगी वैक्सीन

भास्कर न्यूज

नोएडा। जिले में सोमवार से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर टीकाकरण होगा। पहली बार एक साथ सभी 5 सीएचसी, 33 पीएचसी, 7 शहरी पीएचसी पर टीके लगेंगे। विभाग ने स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रों पर वैक्सीन भेजने का काम भी पूरा कर लिया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नीरज त्यागी ने बताया कि सोमवार को जिले के 42 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और 40 निजी अस्पतालों में 8 हजार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बीमार और वृद्ध लोगों को आगे बढ़कर टीका लगवाने के लिए बूथों तक पहुंचना चाहिए। जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। विभाग की

ओर से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क और निजी अस्पतालों में 250 रुपये में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है।

14 दिन में 21 हजार का टीकाकरण : तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए शासन ने एक माह में विभाग को 65,448 हजार का लक्ष्य दिया है। जबकि पिछले 14 दिन में 21 हजार लोगों को टीका लगा है। 17 दिन में करीब 44,448 हजार लोगों का टीकाकरण विभाग के लिए चुनौती है। इसलिए विभाग की ओर से सीएचसी, पीएचसी व शहरी पीएचसी पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। बता दें कि शुरू से एक टीकाकरण को लेकर शासन सख्त है। संबंधित जिलों के सीएमओ को चेतावनी दी गई है। डीएम ने भी सीएमओ से जवाब तलब किया है। लिहाजा विभाग की कोशिश है कि टीकाकरण को हर हाल में शासन की मंशा के अनुरूप किया जाए।





पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बल्क बेस्ट जनरेटर के सहयोग का मामला

# नगर निगम ने वसुंधरा जोन में चलाई मोबाइल कम्पोस्ट वैन

कारवां, कौशांबी के इलाके से की गई शुरुआत

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा शहर को कचरा मुक्त करने के लिए होम कम्पोस्टिंग अभियान, कूड़ा पृथक्करण अभियान समेत अन्य कई अभियान शहर में चलाए जा रहे हैं। जिसके क्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बल्क वेस्ट जनरेटर के सहयोग के लिए मोबाइल कम्पोस्ट वैन को चालू किया गया है। नगर आयुक्त तंवर ने बताया कि मोबाइल कम्पोस्ट वैन द्वारा बल्क



वसुंधरा जोन में चलाई गई गारबेज कम्पोस्ट वैन।

वेस्ट जनरेटर जैसी बड़ी सोसाइटी, कमर्शियल मार्केट, रेस्टोरेंट्स व अन्य जिनको प्रतिदिन निकलने वाले 100 टन गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करना होता है, जिसके लिए बल्क वेस्ट जनरेटर को कम्पोस्ट

कचरा लेकर वहीं पर निस्तारित करने में मदद की जाएगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश ने बताया कि सबसे पहले मोबाइल कम्पोस्ट वैन को वसुंधरा जोन के कौशांबी आरडब्ल्यू के समक्ष प्रयोग में लाया गया। आरडब्ल्यू कारवां के अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र, जो कि कौशांबी की सारी सोसाइटीज के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, इनके पदाधिकारियों सहित सोसाइटी में गीले कचरे का निस्तारण हेतु वैन का प्रयोग किया गया। जिससे यहां के लोग तथा पदाधिकारी आरडब्ल्यू की काफी संतुष्ट व उत्साहित दिखाई दिए। महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के कुशल नेतृत्व में इसी प्रकार नई नई मुहिम शहर को कचरा मुक्त बनाने को लेकर की जा रही है, जिसमें पार्श्वों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है।

धूमधाम से निकाली गई शांतिनाथ दिगंबर जैन रथ यात्रा



मोदीनगर। श्री आदिनाथ 108 भगवान महावीर की जयंती पर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तेल मिल सोसाइटी के तत्वावधान में रविवार को नगर में वार्षिक रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा में सुसज्जित रथ लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। रथ यात्रा तेल मिल स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग होती हुई इंटर कॉलेज से वापस होकर पुनः जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रथ यात्रा का करीब आधा दर्जन स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। थाने के निकट जैन स्वीट्स के सामने भाजपा नेता स्वदेश जैन के नेतृत्व में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल करीब आधा दर्जन बैंड बाजा व डीजे के धार्मिक धुनें नाचते झूमते हुए चल रहे थे।

# विधायक संजय शर्मा ने ग्राम चौपाल में गिनाई सरकार की उपलब्धियां

ग्रामीणों से बजट को लेकर भी चर्चा की  
सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ही यह बजट बनाया है



ग्राम जमराऊ में ग्राम चौपाल लगाते विधायक संजय शर्मा।

भास्कर ब्यूरो

जहांगीराबाद। क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने रविवार को ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत चार गांवों में ग्राम चौपाल लगाई। ग्राम चौपाल में मौजूद रहे विधायक ने ग्रामीणों के समस्याओं को जानकर उनका निराकरण भी करवाया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व हाल ही में पास हुए बजट को लेकर भी ग्रामीणों के साथ


चर्चा की। रविवार को क्षेत्र के गांव जमराऊ, डबकौरा, खनपुरा व जुगसाना खुर्द में विधायक संजय शर्मा ने ग्राम चौपाल लगाई और जनसमस्याएं सुनी। ग्राम चौपाल में मौजूद रहे अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का उचित निराकरण भी विधायक द्वारा कराया गया। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों से चर्चा की। विधायक ने बजट को

लेकर कहा कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ही यह बजट बनाया है। कोरोना महामारी के बुरे दौर से गुजरने के बाद यह बजट सभी वर्गों को राहत देने वाला है। भाजपा सरकार सर्व समाज के प्रति और देश में विकास कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। ग्राम चौपाल कार्यक्रमों के दौरान भाजपा के पदाधिकारी व स्थानीय कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण भी मौजूद रहे।

# रासीबीडीटी चेयरमैन पी.सी. मोदी ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। सीबीडीटी के चेयरमैन पी.सी. मोदी एवं उनकी पत्नी श्रीमती पूनम मोदी ने रविवार को यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशांबी में कोरोना वायरस का टीका लगवाया। श्री मोदी को सिस्टर मैरी ने टीका लगाया एवं उनकी पत्नी को सिस्टर जूली ने टीका लगाया। टीका लगवा कर श्री मोदी एवं उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें टीका लगाकर विशेष प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि वह और उनकी पत्नी दोनों कोरोना से संक्रमित हुए थे और यशोदा हॉस्पिटल कौशांबी में ही भर्ती थे। श्री मोदी ने अस्पताल के प्रबंधन एवं डॉक्टरों एवं स्टाफ का हृदय से



पी सी मोदी, चेयरमैन, सीबीडीटी। पुनम मोदी, गृहिणी।

धन्यवाद ज्ञापित किया और देश के नागरिकों को संदेश दिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अब अन्य लोग भी टीका लगवा कर देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।

पूर्व महापौर आशु वर्मा को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत किये जाने पर किया मय्य स्वागत

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। बीजेपी नेता पूर्व महापौर आशु वर्मा को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोनीत करने पर राजनगर सेक्टर 9 में स्थित उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान महानगर मीडिया संयोजक प्रदीप चौधरी, पूर्व पार्षद मनबीर नागर, राजनगर मण्डल अध्यक्ष विनीत शर्मा, महानगर मंत्री संजीव झा, रामनिवास शास्त्री, अविनाश ओझा, कमल पाल, असीम कटारिया, नवीन पण्डित, नरेन्द्र वर्मा, अभिजीत मुखर्जी, मनीष जैन, जितेंद्र चौधरी,



बीजेपी नेता आशु वर्मा का स्वागत करते हुए महानगर मीडिया संयोजक प्रदीप चौधरी आदि। राजेश्वर यादव, नरेश कश्यप आदि उपस्थित रहे।

# दिल्ली-मेरठ हाइवे पर लगा मयंकर जाम



भास्कर ब्यूरो

मोदीनगर। रविवार को वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण दिल्ली-मेरठ हाइवे के दोनों तरफ चार किमी लम्बा जाम लग गया। जाम इतना भयंकर था कि पुलिसकर्मी भी यातायात को सुचारु करने में नाकाम साबित हो रहे थे। जाम की स्थिति जब और खराब हो गई तब शांतिनाथ दिगंबर जैन रथ यात्रा हाइवे से गुजरी। यात्रा को निकालने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई खास इंतजाम

नहीं कर रखे थे, जिस कारण हाइवे पर दौड़ रहे वाहनों की गति पर विराम लग गया। यात्रा के दौरान हाइवे पर लम्बा जाम लगा। गाजियाबाद की ओर से आने वाले वाहनों की कतार सीकरी कला तक पहुंच गई। लोगों को प्रिन्टों की दूरी तय करने में घंटों का समय लग गया। सबसे भयंकर जाम की स्थिति मोदी मंदिर के सामने थी क्योंकि वहां कुछ वाहन चालकों ने जाम से बचने के लिए अपने वाहन विपरीत दिशा से मोड़ दिये। विपरीत दिशा में

आने से वाहन आमने-सामने आ गए, जिससे सड़क के दूसरी ओर भी जाम लग गया। उधर, मेरठ से गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहनों की कतार गोविन्दपुरी को भी पार कर गई। यात्रा के कारण राहगीरों को जाम के झाम में फंसकर मुसीबत का सामना करना पड़ा। अगर पुलिस प्रशासन यात्रा से पहले यातायात को सुचारु करा देता तो लोगों को घंटों जाम में खड़ा नहीं रहना पड़ता। दिल्ली-मेरठ हाइवे पर देश शाम तक जाम की स्थिति बनी रही।

# डीएम-एसएसपी ने सिक्ंदराबाद में शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण



भास्कर ब्यूरो

सिकंदराबाद। जनपद में नकली शराब एवं अन्य राश्यों की शराब बिक्री होने की संभावना के दृष्टिगत शनिवार की शाम जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी के साथ सिकंदराबाद में खुर्जा गेट एवं दादरी गेट एवं शाहजी डेयरी के पास देशी शराब एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों पर औचक रूप से छापामार की कार्रवाई की। दुकान में स्थित शराब के स्टॉक को चेक कराते हुए आबकारी विभाग के ऐप के माध्यम से दुकान में रखी शराब के बारकोड

को रैंडम आधार पर स्कैन कराकर उनका सत्यापन किया गया। जांच के दौरान कोई भी अनाधिकृत शराब दुकानों में रखी नहीं पायी गई। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में स्थित समस्त शराब की दुकानों का सघन एवं औचक रूप से निरीक्षण कराते हुए यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसी भी रूप में अवैध अथवा अनाधिकृत शराब की बिक्री एवं आवागमन जनपद में न होने पाये। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सिकंदराबाद रविशंकर सिंह, सीओ सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह मौजूद रहे।

# नाले में युवक का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी

सिकंदराबाद। कोतवाली क्षेत्र के स्टेट हाईवे स्थित कटा खेड़ा के पास नाले में एक अज्ञात युवक का गला सड़ा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया शिनाख्त नहीं होने पर शव का पंचनामा भर मोर्चरी भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर एक राहगीर ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि स्टेट हाईवे स्थित कटा खेड़ा के पास नाले नाले से सड़ी गली बद्दू आ रही है सूचना पर सीओ नम्रता श्रीवास्तव व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नाले में झांक कर देखा तो उसमें एक युवक का सड़ा गला हुआ शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने कड़ी मशकत के बाद शव को नाले से बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन काफी प्रयास के बाद भी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर मोर्चरी हाउस भेज दिया। इस संबंध में सीओ सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी।

# दुकान सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने निकाला विरोध मार्च

बैठक करके बनाई महत्वपूर्ण रणनीति, जीडीए अधिकारियों से करेंगे वार्ता  
सीलिंग की कार्रवाई से दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। रविवार को वैशाली सेक्टर 4 में दुकानों की सीलिंग किए जाने के विरोध में वैशाली सुरक्षा फोरम के व्यापारियों द्वारा रोप व्यवस्था किया गया। व्यापारियों ने सड़क पर रोप मार्च निकालते हुए कहा कि सीलिंग की कार्रवाई से दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहले ही



सीलिंग के विरोध में बैठक करके रणनीति बनाते हुए व्यापारीगण।

कोरोना महामारी के कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, लेकिन जीडीए अभियंताओं के सनकी रवैये से व्यापारी खुद को और अधिक परेशानी में महसूस कर रहे हैं। इसका नकारात्मक असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। इस मौके पर व्यापारी सुरक्षा प्रमुख ट्रांस हिंडन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महामंत्री अनिरुद्ध वशिष्ठ, कार्यकारिणी अध्यक्ष ट्रांस हिंडन संजय रस्तोगी, अशोक जैन, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, श्रीमती पूनम, संदीप गुप्ता, एस के चौधरी, राम कुमार गर्ग, जितेंद्र महाज, के के शर्मा, पवन गर्ग,

घनश्याम गर्ग, भाटी आदि व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व प्लेट नंबर 435 और 432 सेक्टर 4 वैशाली में जीडीए द्वारा कार्रवाई कर सीलिंग कर दी गई। जबकि इन प्लॉट्स पर बनी दुकानें लगभग 15 वर्ष से अधिक समय से चल रही हैं। किंतु अचानक व अकारण यह कार्रवाई जीडीए ने किसी अनजान व्यक्ति की शिकायत का हवाला देते हुए किया और इन्हें सील कर दिया। जिससे व्यापारियों के मध्य इसका बड़ा रोष सामने आया है और सैकड़ों की संख्या में आज वैशाली के व्यापारी इस स्थल पर



सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारीगण।

इकट्ठा होकर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं, संजय रस्तोगी की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा फोरम के तत्वावधान में ट्रांस हिंडन के विभिन्न पदाधिकारी आज की मीटिंग में शामिल हुए। जिसमें व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष अशोक गुप्ता आते वाले ने कहा कि व्यापारियों को इस समस्या का निवारण जीडीए के साथ मंत्रणा कर किसी निश्चय पर आने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, सीलिंग को खुलवाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, अन्यथा अपना व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के परिवार मुसीबत में आ जाएंगे। आज की बैठक में

मुख्यतः अध्यक्ष अशोक गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष संजय रस्तोगी, निमिता वाण्यो, अरके गर्ग, पवन गर्ग, मनु माथुर, कमलेश गोयल, महामंत्री अनिरुद्ध वशिष्ठ का कहना था कि जिस शिकायत कर्ता व्यक्ति का इस क्षेत्र में आवास नहीं है, इस क्षेत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मनोदेशा व्यापारियों के उन्नीडन की मानी जानी चाहिये। इसलिये इस शिकायत को निरस्त कर सीलिंग खोली जानी चाहिये। अध्यक्ष संजय रस्तोगी ने जीडीए की कार्रवाई को अनुचित एवं आमनवीय बताया।

# सम्मानित इस कार्य के लिए 31 लाख का बजट है, जिसमें बाउंड्री वॉल, गेट, रेलिंग एवं अन्य कार्य शामिल हैं नंदग्राम में शहीद मेजर आशाराम त्यागी के नाम से होगा पार्क का सौंदर्यीकरण: महापौर

इस पार्क को भव्य रूप दिया जाएगा यहां अच्छे सुंदर फूल व पेड़-पौधे लगाए जाएंगे

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। रविवार को पार्षद कृष्णा त्यागी के वार्ड 49 आदर्श नगर नंदग्राम में शहीद आशा राम त्यागी के नाम से पार्क का नामकरण होली मिलन समारोह के आयोजन के मौके पर किया गया। जिसमें महापौर आशा शर्मा ने पार्क का नामकरण, सौंदर्यीकरण, म्यूजिकल फाउंटेन की घोषणा की गई और बताया कि यह



होली मिलन समारोह में महापौर आशा शर्मा अपने समर्थकों से सम्मानित होते हुए।

पार्क शहीद के नाम पर है। इसलिए इस पार्क को भव्य रूप दिया जाएगा। यहां अच्छे सुंदर फूल व पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। जिसमें शहीद के नाम से अच्छे वृक्ष भी लगेंगे और आस-पास में हरियाली से ऑक्सिजन भी मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 31 लाख का बजट है जिसमें बाउंड्री वॉल, गेट, रेलिंग एवं

अन्य कार्य शामिल हैं और मैं खुद अपने कोटे से म्यूजिकल फाउंटेन बनवाऊंगा। जिसके लिए अखिल भारतीय त्यागी ब्राम्हण सभा के सदस्यों ने एवं स्थानीय लोगों ने महापौर एवं विरेन्द्र त्यागी का भव्य स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं, रेलवे बोर्ड के सदस्य विरेन्द्र त्यागी ने कहा कि हमारी बड़ी बहन महापौर आशा शर्मा से शहीद के नाम पर पार्क बनाने का आग्रह किया। जिसको उन्होंने तत्काल स्वीकार कर बोर्ड में पास कराया और अब 31 लाख की धनराशि से पार्क का सौंदर्यीकरण करवाएंगी। इसी प्रकार उन्होंने मेरे वार्ड में बहुत कार्य कराया है और एक नाला जो कि 5 वार्डों की जल निकासी को प्रभावित करता है, उसके बनाने के लिए भी महापौर

शर्मा निरीक्षण कर चुकी हैं। इसका काम 15वें वित्त का पैसा आते ही शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श नगर में पार्क बनाने का चुनावी वादा था जिसको आप महापौर एवं पार्षद ने मिलकर शहीद के नाम पर पूर्ण किया है। इसके बाद महापौर शर्मा ने सभी को होली की भी शुभकामनाएं दीं। वहीं, अखिल भारतीय त्यागी ब्राम्हण सभा द्वारा आयोजन के बाद बाबा विद्यानंद से कार्यक्रम का समापन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष राज कुमार त्यागी, गजेन्द्र त्यागी, कुलदीप त्यागी, पूनम त्यागी, अशोक त्यागी, अनुग्रह त्यागी, सच्ची त्यागी, अमित त्यागी, उमेश त्यागी, संजय त्यागी एवं अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे।

# बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नरेंद्र कश्यप का हुआ मय्य स्वागत



स्वागत समारोह में मौजूद भाजपा नेतागण।

भास्कर ब्यूरो

गाजियाबाद। पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं यूपी के पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे भाजपा नेता नरेन्द्र कश्यप को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत करने पर संजय नगर सेक्टर 23 स्थित कश्यप हॉस्टल के प्रांगण में उनका स्वागत समारोह पूर्वक किया

गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता अमरदत्त शर्मा, पूर्व पार्षद मुकेश त्यागी, महानगर मीडिया संयोजक प्रदीप चौधरी, मनोज गिरि, ओमदत्त कौशिक, नवीन पण्डित, नरेन्द्र वर्मा, प्रदीप गर्ग, अभिजीत मुखर्जी, मनीष जैन, जितेंद्र चौधरी, अखिल माथुर, हेमलता चौधरी, कौशल गुप्ता, कौशल तेवतिया आदि उपस्थित रहे।

शहर के वीवी इंटर कालेज में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों का आजादी के लिए शहीदों के बलिदान व महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में जानकारी दी गई।

मेरठ, बागपत, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मथुरा

## सार संक्षेप

137 लोगों को चर्मों का वितरण

**शामली।** लोक स्वास्थ्य समिति द्वारा हारिस्टल रोड पर नि:शुल्क चर्म वितरण कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प का शुभारंभ डॉ. सुशील अनवर, समाजसेवी मनोज मिश्र, समिति अध्यक्ष कुलदीप गोयल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अब्दुल बासित द्वारा 203 मरीजों की जांच कर कंप्यूटर मशीन से जांच कर चर्म के नंबर दिए। कैम्प में 137 लोगों को चर्मों का वितरण किया। अतिथियों ने कहा कि यह बड़ा जन सेवा का कार्य है जहां जरूरतमंदों को चर्मों का वितरण हो रहा है। इस अवसर पर संजय कुमार त्यागी, महेश शर्मा, अमित गोयल, राजेन्द्र गुप्ता, रवि संगल, उस्मान नबील, सुनील, सोनू, अमन आदि भी मौजूद रहे।

### आरके इंटर कालेज में हुई एनसीसी की बी सर्टिफिकेट परीक्षा

**शामली।** शहर के आरके इंटर कालेज में रविवार को एनसीसी की बी सर्टिफिकेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में बटालियन के अर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों के 367 छात्र पंजीकृत थे जिनमें से 362 परीक्षा में मौजूद रहे जबकि 5 अनुपस्थित रहे। 38 बटालियन से आए प्रीसाइडिंग ऑफिसर कर्नल पीके चेधरी के निर्देशन में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जिसके बाद डिल टेस्ट, मैथ रीडिंग, वेपन टेस्ट, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट आदि की परीक्षा ली गयी। इस अवसर पर मेजर अनस खान, कैप्टन केपी सिंह, कैप्टन राजनीश कुमार, ले. जितेन्द्र धामा, सुरेन्द्र सिंह, सुबेदार सुरेश कुमार, बीएचएम शमशेर सिंह, बलदादर अजय, राकेश डोगरा, विजय, सूर्य कुमार, संजीव पवार, योगेन्द्र कुमार, सेमपाल आदि भी मौजूद रहे।

### पुलिस ने फिर किया शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

**मुजफ्फरनगर।** एएसएपी अभिषेक यादव के निर्देशन में खाकी द्वारा लगातार अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों की धरपकड़ जारी है। खाकी कई बड़े शराब माफियाओं को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। इसी के चलते सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा भी की गई थी। इसी कड़ी में चरथावल पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। चरथावल पुलिस को सूचना मिली कि चौकी बिरालसी क्षेत्र के ग्राम रोहनीहरजीपुर में अवैध रूप से शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। मामले की सूचना पर पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची। पुलिस ने मौके से देशपाल पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम रोहनीहरजीपुर को अरेस्ट कर लिया।

### आईपीएस विजय कुमार ने होमगार्ड अधिकारियों के साथ की बैठक

**मुजफ्फरनगर।** उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक होमगार्ड आईपीएस विजय कुमार ने मुजफ्फरनगर होमगार्ड पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें सही दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और समाज में शांति स्थापित करने के लिए होमगार्ड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड की कार्यशैली को और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ अहम कदम उठाएंगे।

# ‘विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनें और देश निर्माण में योगदान भी दें’

भास्कर न्यूज़

**मथुरा।** संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा ब्रज उत्थान अभियान के तहत ‘इमरजिंग ट्रेड्स आफ टीचिंग’ को लेकर विश्वविद्यालय के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सीबीएससी स्कूलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यशाला में वक्ताओं ने वर्तमान दौर में शिक्षा के उभरते तरीकों को लेकर गंभीरता से मंथन किया और पाया कि शिक्षा का वह तरीका जिससे विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनने के साथ देश के निर्माण में योगदान करने के लिए तैयार हों, सबसे सही है। इस मौके पर जिले के शिक्षकों सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि एमएसएमई दिल्ली के उप निदेशक वी. रामाकृष्णन ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को बताएं कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनको देश के सफल विद्यार्थियों जिन्होंने विश्व में बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनका उदाहरण देकर सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। शिक्षकों



मथुरा

से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपको विद्यार्थियों की योग्यता और विशेषता को पहचानना होगा और उसके अनुरूप उनको तैयार करना होगा ताकि वे उस विशेषता को दक्षता में बदल सकें। उन्होंने कहा कि हमें नई-नई टेक्नोलॉजी स्वीकार करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि ल्यूमिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर सीताराम गुप्ता ने कहा कि देश के विकास में शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षकों द्वारा देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों के सामने उनका लक्ष्य स्पष्ट हो, उनकी सोच स्पष्ट

और बड़ी हो तो देश आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जब पैशन होता है तो टॉगेट हासिल करना आसान हो जाता है। लेकिन कोई भी टॉगेट बिना एक्शन के हासिल नहीं किया जा सकता है। सेंटपाल स्कूल की शिक्षिका अरुणा जौहरी ने कहा कि हमें नए तरीकों के इस्तेमाल में कई सावधानियां भी बरतनी होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में आनलाइन शिक्षा के दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। मेरी नजर में आमने-सामने बैठकर दी जाने वाली शिक्षा ही प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि माला-पिता को अपनी इच्छाएं बच्चों को न थोपकर उन्हें अपने सपने के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा परंपरागत

### संस्कृति विवि में ‘इमरजिंग ट्रेड्स आफ टीचिंग’ विषय पर हुई कार्यशाला, विभिन्न शिक्षकों ने किया मंथन

विषयों से परे अनेक विषय ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। नंबरों से ज्यादा बच्चों को ज्ञान हासिल करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए कहा इससे बच्चे करके सीखेंगे और सीखकर याद करेंगे। इससे पूर्व संस्कृति विवि के सीईओ रिसर्च डा. राणा सिंह ने उपस्थित शिक्षकों को कार्यशाला के विषय के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने शिक्षा के उभरते तरीकों के बारे में विश्वस्तरीय शोधों का हवाला देते हुए कहा कि आज विद्यार्थियों के लिए नई तकनीकियां समझना और सीखना जरूरी हो गया है। कार्यशाला में जिले के लगभग 100 से अधिक शिक्षकों को स्मृति चिह्न देकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

## सपा ने जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए आवेदन मांगे

भास्कर न्यूज़

**बागपत।** समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने जानकारी दी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में समाजवादी पार्टी जिला समर्थित प्रत्याशी घोषित किया जाने का निर्णय करेगी। जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को पार्टी समर्थन दे रही है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है वह 20 मार्च 20 21 तक पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष के नाम अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश



बिल्लू प्रधान

यादव के निर्देश पर जनपद में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान, पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य राकेश यादव और जिला महासचिव सपा प्रधान रिफाकत अली तीन

सदस्यीय समिति के सदस्य होंगे और प्रत्येक वार्ड से समाजवादी पार्टी के समर्थन के लिए प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों पर विचार करेगी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के उम्मीदवार को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया जाने का निर्णय करेगी। जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीत हासिल करेगा और निर्वात पश्चिम से प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पराजय का श्री गणेश समाजवादी पार्टी बागपत की धरती से करेगी।

## क्षेत्र के युवा खेलों में देश का नाम कर रहे हैं रोशन : प्रमोद गोस्वामी

भास्कर न्यूज़

**खेकड़ा।** कस्बे के अर्वांचन इंटर कॉलेज में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह किया गया। आंचल कैथलिक स्पोर्ट एकेडमी की डायरेक्टर पूजा चौधरी अपने खिलाड़ियों के साथ पहुंची उनके एकेडमी के बच्चे 800 मीटर दौड़ के लिए सलेक्ट हुए। विदेश जाने के लिए केन्या जाकर बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रमोद गोस्वामी ने कहा कि बहन बेटी इतनी हिम्मत करती हैं कि उनकी एकेडमी के बच्चे विदेशों तक नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का डंका बजा रहे हैं यहां के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को पूरी तरीके से सहयोग करें



खेकड़ा

और जो आज की युवा पीढ़ी है उनको इसके लिए आगे बढ़ाएं। हम युवा पीढ़ी के साथ ही मंच संचालन करता उमेश शर्मा ने कहा कि हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के पहुंचे

सतवीर गिरी इंकलाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बच्चों का फूल माला पहनाकर के मोमेंटो देकर स्वागत किया उन्होंने कहा जनपद बागपत में ऐसे खिलाड़ी है जो कि सरकार की तरफ से मदद ना मिलने के कारण और परिवार की भी व्यवस्था कमजोर

## अदबी संस्था गालिब एकेडमी ने किया महफिल ए मुशायरा व सत्मान समारोह का आयोजन

भास्कर न्यूज़

**नजीबाबाद।** गालिब एकेडमी नजीबाबाद की ओर से एकेडमी के जनरल सेंक्रेटी नसीम आलम एडवोकेट के निवास पर एक महफिल ए मुशायरा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें अदबी खिदमत और समाजसेवा के लिए देहली कल्चर सोसायटी के मेम्बर नजीबाबाद निवासी तौसीफ अहमद खॉं, समाजसेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफ़ी और नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार कुरैशी को गालिब एकेडमी की ओर से शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने कहा कि अदबी महफिलों से समाज में जागरूकता पैदा होने के साथ साथ गजलों और शेरों के माध्यम से कौमी एकता अखंडता का संदेश मिलता है। कार्यक्रम में शायर पत्रकार शादाब जफर शादाब व समाजसेवी जीशान नजीबाबादी को कोरोना काल में उनके द्वारा की गई समाज सेवा के कार्य के लिए कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुशायरों का आरम्भ अक़रम जलालाबादी की नात ए पाक से हुआ। मुशायरों के शेरों सफर



नजीबाबाद

में डॉ० तैय्यब जमाल ने कहा- इक बार जिस पे चढ़ गया है आशिकी का रंग, गम क्या है उस के वास्ते क्या है खुशी का रंग, कार्यक्रम का संचालन कर रहे शायर शादाब जफर शादाब ने कहा- कानून की बंदिश के तहत छोड़ दिया है, हम अब भी शिकारी हैं निशाना नहीं भूले। मौफूफ अहमद वासिफ ने कहा- गर्दिश ए वक्त किसी सम्त भी ले चल मुझ को, हाथ अल्लाह ने कहा- निजामी सारे जमाने में वो सुकून कहाँ, जो बात मर्द ए कलंदर की बारगाह में है। काजी वकाउल हक-मानूस अगर राम से जमाना भी नहीं है, मोहताज ए बयान मेरा फ़साना भी नहीं है। इनके अलावा नासिर अहमद नासिर, हाफिज़ शादाब, अल्ताफ रज़ा, मरग़बू हुसैन नासिर आदि ने कलाम रचने के लिए और 130 करोड़ वासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए अदब केशव मंत्री एवं विकास खटीक सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसके अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आभा शर्मा, डॉ० गीतंजलि वर्मा, प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके अग्रवाल ने बताया कि जनपद में आज कुल 474 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रथम और दूसरी डोज प्रदान की गई उन्होंने बताया कि आज 60 वर्ष से अधिक आयु के 255 लोगों को, 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त 10 लोगों को, 6 फ्रंटलाइन वर्कर सहित 15 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की प्रथम डोज दी गई।

## कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने की कमान संमाली बीजेपी मंत्रियों व कार्यकर्ताओं ने

भास्कर न्यूज़

**मुजफ्फरनगर।** जिला चिकित्सालय में केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान एवं उत्तर प्रदेश शासन में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए और 130 करोड़ वासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए अदब केशव मंत्री एवं विकास खटीक सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसके अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आभा शर्मा, डॉ० गीतंजलि वर्मा, प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके अग्रवाल ने बताया कि जनपद में आज कुल 474 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रथम और दूसरी डोज प्रदान की गई उन्होंने बताया कि आज 60 वर्ष से अधिक आयु के 255 लोगों को, 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त 10 लोगों को, 6 फ्रंटलाइन वर्कर सहित 15 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की प्रथम डोज दी गई।



मुजफ्फरनगर

खटीक जिला मंत्री, सुनील दर्शन जिला मंत्री, कपिल त्यागी केशव मंडल अध्यक्ष, राजेश पराशर मंडी मंडल अध्यक्ष, कमल कांत शर्मा मंडल मीडिया प्रभारी, नंदकिशोर सेनी केशव मंडल महामंत्री, नवीन चंदेल केशव मंत्री एवं विकास खटीक सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसके अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आभा शर्मा, डॉ० गीतंजलि वर्मा, प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसके अग्रवाल ने बताया कि जनपद में आज कुल 474 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रथम और दूसरी डोज प्रदान की गई उन्होंने बताया कि आज 60 वर्ष से अधिक आयु के 255 लोगों को, 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त 10 लोगों को, 6 फ्रंटलाइन वर्कर सहित 15 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की प्रथम डोज दी गई।

## पुलिस के हत्ये चढ़ा 15 हजार का इनामी गैंगस्टर रईस



नगीना

**नगीना।** जनपद बिजनौर में अब बदमाशों की शामत आ गई है। अपराधियों को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ० धर्मवीर सिंह ऑलआउट एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपने आला अधीक्षक के विश्वास पर खरे उतरते हुए नगीना कोतवाल कृष्ण मुरारी दोहरे भी लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आला नगीना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर व 15 हजार इनामी बदमाश रईस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नगीना कोतवाल कृष्ण मुरारी दोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगीना थाने का गैंगस्टर रईस पिछले काफी समय से फरार चल

रहा था। जिस पर पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 15 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना नगीना पुलिस लगातार रईस को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना नगीना पुलिस ने रईस पुत्र शरीफ काजी सराय को मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा सपदार के खोके के पास से पुलिस चेंकिंग में गिरफ्तार कर लिया। रईस थाना नगीना का गैंगस्टर अपराधी है तथा उसके दोनों पुत्र रविश व दानिशा भी थाना नगीना के हिस्ट्रीशीटर बदमाश हैं। रविश इस समय बिजनौर गिरफ्तार में बंद है। गिरफ्तार रईस को गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल कृष्ण मुरारी दोहरे, वप निरीक्षक योगेश कुमार, सुभाष धनकड़, प्रेमपाल सिंह, ओम सिंह, सोनू, प्रमोद शामिल रहे।

## छात्रों को दी गयी शहीदों के बलिदान व गांधी के दांडी मार्च की जानकारी

भास्कर न्यूज़

**शामली।** शहर के वीवी इंटर कालेज में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों का आजादी के लिए शहीदों के बलिदान व महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में जानकारी दी गयी।



शामली

छात्रों को आजादी के संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के बलिदानों के बाद ही हमारे देश को आजादी मिली थी, आजादी के 75 वर्ष को हम सभी को पूरे उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाना है। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर

शर्मा को विशेष सम्मान देकर के सम्मानित किया गया। कार्यशाला में जिले के सीबीएससी स्कूलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यशाला में वक्ताओं ने वर्तमान दौर में शिक्षा के उभरते तरीकों को लेकर गंभीरता से मंथन किया और पाया कि शिक्षा का वह तरीका जिससे विद्यार्थी अच्छे नागरिक बनने के साथ देश के निर्माण में योगदान करने के लिए तैयार हों, सबसे सही है। इस मौके पर जिले के रियल पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

### कार्यशाला में जिले के सीबीएससी स्कूलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया

वक्ताओं ने वर्तमान दौर में शिक्षा के उभरते तरीकों को लेकर गंभीरता से मंथन किया



मथुरा

रियल पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करते अतिथि।

स्थित रियल पब्लिक स्कूल के 4 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। शिक्षा जगत में विशेष योगदान एवं 100 प्रतिशत रिजल्ट देने के उपलक्ष्य में

कांग्रेस से लेकर भाजपा, सपा, बसपा, तेलुगु देशम, अज्जाद्रमुक, द्रमुक, बीजू जनता दल, अगप, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना तक देश की सभी पार्टियों में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र से आए असंख्य कलाकार अपनी राजनीतिक भूमिका का बहुत ही सकारात्मक निर्वहण करते दिखाई भी दे रहे हैं।

# फिल्मी सितारे और भाजपा की राजनीति



ज़ानेन्द्र पाण्डेय

भारतीय राजनीति में फिल्म जगत के कलाकारों का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिल्म जगत की वैजयंती माला वाली, सुनील दत्त, शबाना आज़मी, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेन्द्र, गोविंदा, शिवाजी गणेशन, एम.जी. रामचंद्रन, एन.टी. रामाराव और लता मंगेशकर सरीखी ख्याति प्राप्त हस्तियों के साथ ही देश के सभी राज्यों की नामचीन असंख्य फिल्मी हस्तियों ने भी भारतीय राजनीति में अपना खास योगदान दिया है। फिल्मों के साथ ही टेलीविजन जगत के कलाकारों ने भी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के कलाकारों ने ग्लैमर की दुनिया से कमाई अपनी लोकप्रियता का लाभ राजनीति में उठाया और इसे राजनीति की सफलता के एक शार्ट कट के रूप में इस्तेमाल किया है। फिल्म और टेलीविजन के वो सितारे राजनीति में ज्यादा आए, जिन्होंने धार्मिक फिल्मों में किए गए अपने अभिनय से जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की थी। दरअसल फिल्मों में प्रवेश करने के बाद का यह सिलसिला शुरू ही दक्षिण भारत से हुआ था। बाद में यह रोग देश के सभी इलाकों में लग गया। अब तो दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलियाली फिल्म कलाकारों के साथ ही ओडिया, मराठी, असमिया, गुजराती, बंगाली और हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों के कलाकार भी बड़ी तादाद में फिल्मों से राजनीति में आने लगे हैं। टेलीविजन की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने वाले नेताओं की बात करें तो इसकी शुरुआत कई दशक पूर्व दूरदर्शन पर दिखाए गए दो धार्मिक धारावाहिक- रामायण और महाभारत से मानी जा सकती है। इन धारावाहिकों के राम, कृष्ण, रावण और सीता जैसे मुख्य पात्रों का अभिनय करने वाले - अरुण गोविल, नीतीश भारद्वाज, अरविन्द त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया जैसे कलाकारों का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। इनमें कई

कलाकार सांसद भी बने और कुछ एकदम निष्क्रिय भी हो गए। बाद के दौर में फिल्म और टेलीविजन के परेश रावल और स्मृति ईरानी सरीखे अन्य कलाकारों ने भी राजनीति में आए और आज तक जमे भी हुए हैं। फिल्म और टेलीविजन से नाम कमा कर राजनीति में अपनी पैठ बनाने वाले नेताओं ने किसी एक पार्टी को आधार नहीं बनाया, बल्कि इन कलाकारों को हर पार्टी ने अपने साथ लेकर अपना आधार और मजबूत बनाने में ही अपनी खैर समझी है। कांग्रेस से लेकर भाजपा, सपा, बसपा, तेलुगु देशम, अनाद्रमुक, द्रमुक, बीजू जनता दल, अगप, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना तक देश की सभी पार्टियों में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र से आए असंख्य कलाकार अपनी राजनीतिक भूमिका का बहुत ही सकारात्मक निर्वहण करते दिखाई भी दे रहे हैं। इन कलाकारों का जमघट यूं तो सभी पार्टियों में है, लेकिन केंद्र और देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सत्तासीन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में इन कलाकारों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कहीं ज्यादा है।

हाल के दिनों में तो एक - एक कर देश के सैकड़ों फिल्म और टेलीविजन कलाकारों ने भाजपा का दामन थामा है। इस श्रृंखला में ताजा नाम मिथुन चक्रवर्ती का है। किसी जमाने में खुद को धुर वामपंथी मानने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने पिछले दिनों कोलकाता के परेड ग्राउंड मैदान में तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ली थी। पार्टी में शामिल होने के बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहने से भी संकोच नहीं किया कि वह एक कोबरा है और कभी भी पलटवार कर ही काम तमाम कर देगा। वो पलटवार कर किसका काम तमाम करेगा, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जानकार लोग मानते हैं कि ऐसा कह कर उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए हैं। उनका एक निशाना तो अपनी पुरानी पार्टी की तरफ है तो दूसरे निशाने पर उन्होंने अपनी मौजूदा पार्टी को भी भविष्य का संकेत दिया है।

मिथुन का राजनीति से नाता पुराना है। वह लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। बताया जाता है कि जब बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी, तब उनका माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के तत्कालीन परिवहन

## भारतीय राजनीति



मिथुन का राजनीति से नाता पुराना है। वह लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। बताया जाता है कि जब बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी, तब उनका माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के तत्कालीन परिवहन एवं खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के साथ बहुत करीबी संबंध भी रहा था।

एवं खेल मंत्री सुभाष चक्रवर्ती के साथ बहुत करीबी संबंध भी रहा था। इसके बाद वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ममता की पार्टी ने 2014 में उन्हें अपने टिकट पर राज्यसभा पहुंचाया, लेकिन दो साल बाद शारदा चिट फंड चोटाले में अपना नाम आने के बाद उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगने लगी थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में आयोजित चुनाव रैली में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर चलने वाली धुर दक्षिण पंथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। धुर वामपंथ से धुर

दक्षिण पंथ तक की उनकी यात्रा रोमांचक रही हो या न रही हो, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए इस यात्रा के हर पड़ाव चींकांने वाले जरूर रहे होंगे। बताते हैं कि मिथुन के भाजपा में शामिल होने की एक वजह यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस में बंगाली फिल्म और टेलीविजन के कलाकारों का जमावड़ा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मिथुन जैसे अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी, वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार के लिए सितारों की भीड़ वाली इस क्षेत्रीय पार्टी में रहना असहज लगने लगा था और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भाजपा की शरण लेना ही बेहतर समझा। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन असली कारण तो यही था कि एक तो शारदा चोटाला मामले से वो बचना चाहते थे, दूसरा उनको अपने बेटे को भी बलात्कार के एक कथित आरोप से बचना था।

मिथुन चक्रवर्ती अकेले ही भाजपा में शामिल नहीं हुए, उनके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अध्यक्ष की उपस्थिति में पूर्ण मित्रा सहित बंगाल के एक दर्जन से अधिक कलाकारों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल होने वाले बंगाली कलाकारों में ऋषि कौशिक, कंचना मोडरा, रूपांजना मित्रा, रूपा भट्टाचार्य और मोमिता चटर्जी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पश्चिम बंगाल के फिल्मी कलाकारों की इस टीम के साथ ही भाजपा में फिल्मी कलाकारों की काफी लम्बी भीड़ पहले से ही है। भाजपा के फिल्मी सितारों में सनी देओल के रूप में एक नया नाम 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तब जुड़ा था, जब पार्टी ने उनको पंजाब से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था और वो चुनाव जीत कर सांसद भी बने। सनी देओल के साथ ही उनकी दत्तक मां और पूर्व फिल्म अभिनेत्री भी भाजपा के टिकट पर जीत कर मथुरा से लोकसभा की सदस्य बनी हैं। सनी देओल के पिता अतीत में राश्ट्रिय की बीकानेर सीट से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। हेमा मालिनी का एक सफल फिल्मी करियर तो रहा ही साथ ही उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। हेमा मालिनी साल 2004 में भाजपा की सदस्य बनी थीं और उन्होंने मथुरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता भी था। 2019 में वो फिर मथुरा से चुनाव जीती थीं। हेमा मालिनी के

अलावा टेलीविजन सिरिलिय 'सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी भी कला की दुनिया से भाजपा की राजनीति में आयीं और वर्तमान में मोदी सरकार में कबीना मंत्री का किरदार निभा रही हैं। राजनीति में आने के बाद स्मृति ने अभिनय के क्षेत्र से दूरी बना ली है।

भाजपा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र के असंख्य कलाकारों में वीर-जाग, देवदास और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी चंडीगढ़ की भाजपा सांसद अभिनेत्री किरण खेर, आसनसोल से भाजपा के सांसद, फिल्मों के प्रसिद्ध गायक और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, गुरुदापुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद खन्ना का नाम उल्लेखनीय है। विनोद खन्ना ने 'मन की मीत' फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ राजनीति जगत में भी अपना दबदबा बनाया था। इसी कड़ी में फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीतने वाले परेश रावल का भी नाम लिया जा सकता है। गुजरात से परेश रावल ने राजनीति के मैदान में भी दिलों पर राज किया। इसके अलावा पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने भी कुछ साल पहले ही भाजपा का दामन थाम लिया था।

रवि किशन बॉलीवुड के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमाजगत का भी एक चर्चित चेहरा माने जाते रहे हैं। रवि किशन की तरह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी भी भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं। इसी तरह, बड़े परदे पर 'सूर्यवंश' फिल्म में हीरा ठाकुर की पत्नी का किरदार निभाने वाली कलाकार सौंदर्य रघु भी भाजपा से जुड़ी थीं। सौंदर्य रघु का बहुत ही कम उम्र में तब निधन हो गया था, जब उन्होंने साल 2004 में पार्टी के प्रचार के लिए बेगलूर से हेलिकॉप्टर से उड़ान भरी थी। उनका हेलिकॉप्टर अधबीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। यह उनका आखिरी सफर था। संसद के दोनों सदनों के कई भाजपा सदस्य फिल्म और टेलीविजन की पृष्ठभूमि के हैं और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के भी कई भाजपा सदस्य फिल्म और टेलीविजन की दुनिया से ही राजनीति में आए हैं। (लेखक दैनिक भास्कर, नोएडा के संपादक हैं)

## ज्ञान संस्कार



## सोमवार को जरूर करें ये अचूक उपाय

खुशियों से भर जाएंगी जीवन आर्थिक तंगी भी होगी दूर



दिलीप शुक्ला

आज सोमवार है। मान्यता के मुताबिक सोमवार का संबंध भोले भंडारी से रहा है। इस दिन को भोले भंडारी की पूजा करने से न सिर्फ वद खुश होते हैं, बल्कि माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ-साथ पूरा शिव परिवार खुश होता है। लिहाजा इस दिन भक्त अपने आराध्य शिवजी की पूरे विधि-विधान से पूजा आराधना करते हैं। मान्यता के मुताबिक, सोमवार के दिन व्रत और पूजा करने से शिव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्द खुश होते हैं। वे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा करने वालों के जीवन से दुख, क्लेश व आर्थिक तंगी दूर होती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा इस दिन व्रत व शिव पूजा करने से उनका विवाह हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें भोलेनाथ जैसा मनवाह्य वर मिलता है। सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर जाएं या घर पर ही विधि-विधान से शिव जी की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं। इसके बाद उन पर चंदन, चावल, भांग, सुपाड़ी, बिल्वपत्र और धतूरा चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद आखिरी में शिव जी की विधि-विधान से आरती करें। ऐसे करें भोले भंडारी को खुश सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगाजल या पवित्र जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन शिवजी को खास तौर पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन महात्म्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। इन चीजों से भोलेनाथ को है प्रेम अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जब आप उन्हें चावल अर्पित करें, तो चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वहीं शिव जी को नारियल की बेहद पसंद है तो आप उन्हें नारियल चढ़ा सकते हैं। पूजा करते वक्त कभी काले वस्त्र धारण ना करें, अगर आपके पास हरा रंग का वस्त्र है तो आप उसे पहनकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा केसरिया, पीला, लाल और सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को खास तौर पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन महात्म्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं, जिन्हें सोमवार के दिन करने से नुकसान हो सकता है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी पूजा-अर्चना में किसी प्रकार की भूल हो जाए तो भगवान रूप से क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनकी पूजा में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सोमवार को कुछ ऐसे काम हैं, जिसे उस दिन करने से भगवान शिव और माता पार्वती नाराज हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति चाहे कितना भी पूजा-पाठ कर लें उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सो, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करके इन कार्यों को त्यागने का संकल्प लें।

# महंगाई व बेरोजगारी पर कब लगेगी लगाम?



सुशील पंडित

देश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था एक-दूसरे के पूरक हैं। मतदान अर्थात् जनता के द्वारा लिया गया वह निर्णय राष्ट्र की सुदृढ़ता और समृद्धि के लिए उचित या अनुचित हो सकता है। व्यवस्थात्मक दृष्टि से जनता के द्वारा लिया गया निर्णय जनता की अपेक्षाओं पर आधारित माना जाता है। भारतीय जनतंत्र में जनता चुनाव के समय मतदान करके अपनी शक्ति और रूचि का परिचय देती है, किन्तु उसके बाद अगले चुनाव तक उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। उसकी चुनौती हुई सरकार चलाने वाले अपने दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नीतियां बनाते हैं। विपक्ष में बैठे लोग अपने निहित स्वार्थों की दृष्टि से उनका समर्थन अथवा विरोध करते हैं। इस स्वार्थसाधिनी राजनीति में जनता का हित पीछे छूट जाता है और दलों के हित मुख्य हो जाते हैं। ये स्थितियां जनतंत्र की मूल भावना को आहत करती हैं। जनता के द्वारा किसी भी सत्ता के परिवर्तन का मूल कारण वहां की शासन व्यवस्था की कार्यशीली से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूलता मानी जाती है। महंगाई, बेरोजगारी तथा आम जनजीवन में निरंतर आने वाली असुविधाओं से दो-चार होने पर देश की जनता किसी भी राजनीतिक दल को अंश से फंश पर लाने की क्षमता रखती है। जब-जब देश में महंगाई बढ़ती है, उस समय मौजूदा सरकारों का रटा रटया और जनता के लिए असंतोषजनक भाषण होता है 'अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है'। इसे सरल भाषा में नैतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना भी कह सकते हैं। लगभग 70 साल कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया और ऐसा भी नहीं है कि इन 70 सालों में कांग्रेस या अन्य सहयोगी दल जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस राज में महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था के साथ-साथ देश में औसतन रूप से विकास भी हुआ है, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जिस प्रकार परिवर्तन सूचित का नियम है उसी प्रकार सत्ता परिवर्तन भी लोकतंत्र का नियम है।



## स्वार्थसाधिनी राजनीति

कुनि हुई सरकार चलाने वाले अपने दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नीतियां बनाते हैं। विपक्ष में बैठे लोग अपने निहित स्वार्थों की दृष्टि से उनका समर्थन अथवा विरोध करते हैं। इस स्वार्थसाधिनी राजनीति में जनता का हित पीछे छूट जाता है और दलों के हित मुख्य हो जाते हैं।

अपेक्षाएं मौजूदा शासन से जुड़ चुकी थीं। कदाचित् भारतीय जनता पार्टी ने भी इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया, परंतु प्रचंड बहुमत के मद में सत्ता लोभ से वशीभूत होकर आम जनमानस की पीड़ा का कोलाहल सुनने में असमर्थ लगने लगी है। सम्भवतः किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ व स्वस्थ होनी अति अनिवार्य है, जिसके लिए आम जनता से लेकर बड़े व्यवसायियों से वसुले गए टैक्स, वैट, जीएसटी की आवश्यकता होती है और देश की जनता यह सब अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में निभा रही है, परंतु यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता अपेक्षाओं का शिकार भी होती नजर आ रही है।

वर्तमान में देश की जनता के समक्ष दो सबसे बड़ी समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी मुंह खोलें खड़ी हैं। कोरोना काल के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक झटका लगा, वहीं करोड़ों लोग इस महामारी के चलते आर्थिक रूप से निर्बल हो चुके हैं। अभी जनता आर्थिक मंदी के दौर से उबरी ही नहीं थी की महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे शब्द हैं, जिन्हें आम जनता हो या फिर अमीर आदमी कोई ही इसे पसंद नहीं करता। यदि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो महंगाई को बुरा नहीं माना जाता बशर्ते वह सीमा में हो और रोजगार की स्थिति से उसे समर्थन करे तो ही अर्थात् यदि आम

जनता की जेब भारी होगी और रोजगार व्यवस्था समृद्ध होगी तो कहीं ना कहीं महंगाई से दो-दो हाथ करने में कोई भी व्यक्ति गुरेज नहीं करेगा, परंतु जब महंगाई के साथ ही बेरोजगारी के हालात समक्ष हों तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए संकट की स्थिति मानी जा सकती है। हमारा देश आज इसी संकट में फंसा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ कदमताल कर रहे हैं। हाल ही में घोषित हुए देश के बजट के आधार पर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा बजट पास किया गया था, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना हो सकती है, परंतु बाजार रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा। वर्तमान परिदृश्य में भारत की जनता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और बेरोजगारी हैं वहीं इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि लगातार होने से जनता फिर से वैकल्पिक सत्ता सुनिश्चित करने के पथ पर अग्रसर होती नजर आ रही है। पेट्रो पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि के कारण रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति करने वाले उत्पादों का महंगा होना स्वभाविक हो जाता है। दरअसल देश-दुनिया में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती हैं। यदि हम भारत की बात करें तो पेट्रोल के भाव कई राज्यों में 100 रुपए होने जा रहे हैं और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी तेजी से पेट्रो पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव का असर भारतीय बाजार में निश्चित रूप से पड़ता है। 2021 जनवरी में कच्चे तेल का भाव बढ़ गया है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के दामों वृद्धि हुई परन्तु लगभग 8 महीने पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की थी जिसका अनुकूल प्रभाव भारत में तेल के दामों पर कहीं देखने को नहीं मिला। अर्थात् देश की जनता का सरोकार उत्पादों की दर वृद्धि से है? अब जबकि पेट्रोल 100 रुपए के पार और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचने वाला है क्या सरकार आम आदमी को तेल की महंगाई से राहत देगी? क्या मौजूदा सरकार उस मतदाता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी जिसने विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुना था?

वस्तुतः किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए बेलागम बढ़ती महंगाई सबसे खतरनाक संकेत है। हमारे देश में यदि सरकार और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से महंगाई को कम करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम लिये उठाए गए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई खतरनाक विकृतियों को बढ़ावा मिलेगा। देश की समृद्धि और प्रगति महंगाई की मार से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। आम आदमी के जीवन स्तर पर भी सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए समय रहते महंगाई को बढ़ती इस रफ्तार को रोकने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। (राजनैतिक विश्लेषक)

# टीनएज बेटों की कैसी हो डाइट

नीलम अरोड़ा

## मानुषी/पैरेंटिंग

किशोरावस्था में लड़कियों के खानपान का खास ध्यान रखना होता है। जहां तक टीनएजर लड़की की डाइट का सवाल है, उसे चूंक भविष्य में अपने आपको मां बनने के लिए तैयार करना होता है, ऐसे में किशोरावस्था से ही उसकी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। कम खाने की बजाय सही खाना चाहिए। इसके लिए ऐसे भोजन का चयन करना चाहिए, जिससे आपको लंबे

बनाय पनीर और चीज दें। खालिस दूध देने की बजाय उदमं फल डालकर उनकी स्मूदी बनाएं। मशरूम और चिकन की फ्रीलिंग वाले सैंडविच दें। सब्जियों के कबाब और रोल बनाकर दें। इस तरह की चीजें पौष्टिकता से भरपूर होती हैं, इन्हें खाने के बाद भूख नहीं लगती, जो उसे खाने में भी अच्छी लगती है और इन्हें कम समय में भी



समय तक ऊर्जा मिले। शरीर में जमा अतिरिक्त वसा से मांसपेशियों को मजबूती मिले, इससे चेहरे और पूरे शरीर की सुंदरता में भी इजाजा होता है। एक टीनएजर को दिन में किसी भी वक्त का खाना मिस नहीं करना चाहिए। स्कूल में लंच के समय खाने के लिए घर की बनी चीजों को ही खाना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहती है। स्कूल की कैंटीन में मिलने वाले बर्गर, नूडल्स, पैटीज जैसी चीजें शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा नहीं कर पाती हैं। नमकीन, आलू के चिप्स, नाचोल्स, स्नैक्स और तले भुने खाद्य पदार्थ, ननस्पति घी में बने चटपटे स्नैक्स, पैकड बैकिंग फूड्स जैसी चीजों से बचकर खाना चाहिए। अपने भोजन में स्टार्च और चीनी से कम 45 मिनट किसी खेलकूद में भाग लें। पास्ता, चावल, आलू, सफेद ब्रेड, कॉर्न, पीस, शकरकंद और मोठे फल जैसे केला, आम, चीकू का भी सेवन कम करना चाहिए। कैंडी, केक्स और चॉकलेट जैसी चीजों को कभी-कभी दिया जा सकता है। अपनी टीनएजर बेटों को दो जाने वाली डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, छिलके वाली दालें, फाइबर युक्त सब्जियां जैसे बींस, मटर, गाजर और कमलककड़ी, भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। सोयाबीन और दूसरी साबुत छिलके वाली दालों को भोजन का अहम हिस्सा बनाएं। दूध और प्रतिदिन 8 से 10 बादाम की गिरी भिण्गेंकर दें। यदि आपके पास खाना बनाने का समय कम है तो खाने का समय नहीं है तो उसे ऐसी चीजें बनाकर दें, जो कम हो, लेकिन जिनमें पौष्टिकता की मात्रा ज्यादा हो। दूध की

रदि आपके पास खाना बनाने का समय कम है या खाने का समय नहीं है तो उसे ऐसी चीजें बनाकर दें, जो कम हो, लेकिन जिनमें पौष्टिकता की मात्रा ज्यादा हो। दूध की

चलते फिरते खाया जा सकता है। दिन के समय उसे कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक से परहेज रखना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें दूध के विकल्प के रूप में लिया जाता है, वह शरीर में पर्याप्त कैल्शियम की आपूर्ति नहीं करते। टीनएज में लड़कियों को विटामिन और खनिज लवणों को उनकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर उसे कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट भी दिये जा सकते हैं। टीनएज वह अवस्था है जब लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही खेलों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। दिन में कम से कम 45 मिनट किसी खेलकूद की गतिविधि में और 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक और 15 मिनट रनिंग करना चाहिए। टीनएज में अगर भोजन में पौष्टिकता के महत्व की जरा सी अनदेखी की जाए तो एनोरेक्सिया, नर्वोसा, बुल्मिया जैसे इटिंग डिऑर्डर हो सकते हैं।

## नीति ज्ञान



राकृष्ण परमहंस

जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी तरह गंदे मन-विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता ... राकृष्ण परमहंस

## प्रेरक प्रसंग

# निःस्वार्थ सेवा

एक छोटा सा लड़का एक होटल में गया। कुछ ही देर में वहां वेटर आया और पूछा आपको क्या चाहिए? बच्चे ने उल्टा पूछा, वैनीला आइसक्रीम कितने रुपए का है? वेटर ने जवाब दिया, 50 रुपये का। उस छोटे लड़के ने अपने जेब में हाथ डाल कर कुछ निकाला और हिसाब किया। उसने दोबारा पूछा, संतरा पलेवर आइसक्रीम कितने का है। वेटर ने जवाब दिया और कहा 35 रुपये का सर। अब उस लड़के ने कहा। मेरे लिए एक संतरा पलेवर आइसक्रीम ले आइए। वेटर आइसक्रीम की प्लेट और साथ में बिल लेकर आया और उस बच्चे के टेबल पर रखकर चला गया। आइसक्रीम खाने के बाद उसने पैसे दिए और वह चला गया। जब वह वेटर वापस आया, तो वह दंग रह गया। यह देखकर कि उस लड़के ने खाली आइसक्रीम प्लेट के बगल में उसके लिए 15 रुपये का टिप छोड़ दिया था। उसने वैनीला आइसक्रीम नहीं खाया, वह पैसे वह वेटर को दे गया। इसे कहते हैं निःस्वार्थ सेवा।

पंचायत चुनाव व होली त्योहार को शांति पूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सभी तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। - विनय कुमार सिंह, एडीएम

# अमरोहा

हसनपुर, धनौरा, गजरोला

## कुरान की आयतें हटाने की मांग पर वसीम रिजवी का फूका पुतला

वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला कहा है, इससे मुस्लिमों में है भारी रोष

भास्कर न्यूज

अमरोहा। कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग करने पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का शिया समुदाय के लोगों ने पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शीघ्र जेल भेजने की मांग की हाल ही में वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतें हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला कहा है, इससे मुस्लिमों में भारी रोष है।

अंजुमन-ए-असगरी, हजरत शाह विलायत एजुकेशनल ग्रुप, शिया सुन्नी इतेहाद कमेटी,



अमरोहा

मातमी दस्तों व उलेमाओं ने वसीम रिजवी कि गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। रविवार को अंजुमन असगरी के बैनर तले लोगों ने मोहल्ला बड़ा दरगाह में वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। रिजवी को गंगा-जमुनी तहजीब के लिए खतय बताया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जहीर

हसन, गुलजार हसन, गुलाम सज्जाद, मोहम्मद नज्बात, अरिज अली खान, बाकर अली खान, डॉ चंदन नकवी, मोहम्मद तुराब, शुजात अली, शबी हैदर, राजन, मेराज रजा, हसन अब्बास, मुजाहिद अब्बास, मोहम्मद अहमद, रजिम नकवी, जफर अली खान, बब्बन, काशिफ अली खान, मोहम्मद ताजदार, मुदास्सिर अली खान आदि मौजूद रहे।

### ... सुल्तान चाइल्ड क्लिनिक प्रकरण

## मासूम ने तोड़ा दम, मगर विभाग के अफसरों की नहीं टूट रही नींद

भास्कर न्यूज

अमरोहा। प्राइवेट क्लिनिक में मासूम की मौत के एक सप्ताह बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है। परिजन इन्फाफ के लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही उनके बच्चे की मौत का कारण बनी है। उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कह रहे हैं।

काबिलेगौर हो कि शहर के मोहल्ला दानिशमंदान (आजाद मार्ग) स्थित सुल्तान चाइल्ड क्लिनिक में शफातपोता निवासी सलमान के बेटे की मौत हो गई है। क्लिनिक डॉक्टर

दिलशाद चलाते हैं। सलमान का आरोप है कि 6 मार्च को खांसी की शिकायत पर उसने मासूम बेटे अयान को सुल्तान चाइल्ड क्लिनिक में डॉ दिलशाद को दिखाया था, तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाई देकर घर भेज दिया। तभी से उसका बेटा गुमसुम हो गया, दोबारा दिखाने पर एक ओर इंजेक्शन लगाकर सिरप पिला दिया। इसके बाद मासूम की तबियत और ज़्यादा बिगड़ गई। आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि जब परिजन क्लिनिक पहुंचे तो डॉ. दिलशाद ने अफ़रुद व्यवहार किया तथा

### होली पर अराजक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर

अमरोहा। होली और पंचायत चुनाव को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। थानों में शांति समिति की बैठक कराई जा रही है।

पंचायत चुनाव की तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। चुनाव को लेकर गांवों की राजनीति भी गरमाने लगी है। गांव-गांव भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। गांव का माहौल चुनावी हो गया है। ऐसे में होली के त्योहार को संवेदनशील माना जा रहा है। होली और पंचायत चुनाव को शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अफसर अलर्ट हो गए हैं। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शरारती तत्वों को मुचलका पाबंद किया जा रहा है। थानों में शांति समिति की बैठक कराई जा रही है। होलिका दहन वाले स्थानों की सूची तैयार कर ली गई है। जिले में एक हजार से अधिक स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। एडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव व होली त्योहार को शांति पूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सभी तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है।

### ... पहचान जाएं आका मुझे मेरे नाम से

## हजरत निजाम गंजे रवा के उर्स पर सजाई गई नातिया महफिल

भास्कर न्यूज

अमरोहा। दरगाह हजरत निजाम गंजे रवा रहमतुल्लाह अलैह की प्रबंध समिति की ओर से बाजार नौबतखाना स्थित दरगाह स्थित खानकाहे निजामियां में शनिवार रात नातिया महफिल का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता आलमगीर सैफी ने की, जबकि हबीब अहमद एडवोकेट बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। महफिल का आगाज हाफिज फैजान रखा ने तिलावते कलामे पाक से किया। इसके बाद शायरों ने कलाम पेश किया। नासिर अमरोहवी ने कहा..नासिर बरोजे हज़्र अजब लुत्फ़ हो अगर, पहचान जाएं आका मुझे मेरे नाम से। जीशान अली शौक अमरोहवी ने पढ़ा..जब जाओ मदीनें बादे सबा सरकार से कुछ मत कहियो तुजा, ये जानते हैं महबूब खुदा बीमार का आलम क्या होगा। हबीब अहमद एडवोकेट ने यूं



पढ़ा.. कोई अदना हो के आला कुछ न होगा इतियाज, यानी बख्शिश सब की होगी ये है वादा आप का। मेहरबान अमरोहवी ने यूं कहा.. दुआएं दुश्मनों को दीं खताएं दरगुजर कर दीं, मेरे आका का अंदाजे अता सब से निराला..जब अनीस अमरोहवी ने पढ़ा..मेरी आंखों में शोहे दीन के घर के जलवे, आ जरा देख मेरी शोख नजर के जलवे। इनके अलावा माइल अमरोहवी,

सुल्तान मंसूरी, इकरार सैफी, मकारिम अमरोहवी व गुलरेज अब्बासी ने भी नातिया कलाम से महफिल नूतनी बनाई। संचालन अनीस अमरोहवी ने किया। आखिर में कनवीनर यासिर अंसारी शुक्रिया अदा किया। महफिल में अतहर अजहरी, वकार एडवोकेट, हाजी असजद खान, शाहिद सैफी, हाजी फुरकान, फहीम रजा, नदीम अहमद, नईम अंसारी मौजूद रहे।

## लोन करने का झांसा देकर ठगे 51 हजार पांच सौ रुपये

भास्कर न्यूज

अमरोहा। फोन पर मैसेज भेजकर लोन करने का झांसा दिया और 51500 रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने राजस्थान निवासी दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जानकारी अनुसार थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव यहियापुर निवासी मोहम्मद जावेद पुत्र दूल्हे हसन के मोबाइल पर 28 दिसंबर 2019 की शाम पांच बजे मैसेज आया। मैसेज वाले नंबर पर कॉल कर जानकारी मांगी तो कंपनी की प्रतिनिधि कुमारी सुनीता ने दिए गए एक को डाउनलोड करने व उस पर निजी जानकारी भेजने को कहा। जिस पर मोहम्मद जावेद ने सारी जानकारी दे दी। इसके बाद 31 हजार रुपये

प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा किए। दो घंटे बाद फिर उसके पास फोन आया। टीडीएस और आईटीआर के नाम पर 5600 जमा करने को कहा। बाद में कंपनी मैनेजर राकेश कुमार के फोन करने पर 6500 रुपये और जमा कराए गए। इसके बाद भी मैनेजर का दोबारा फोन आया और उसने कागजी कार्रवाई के नाम पर पहले 8500 और फिर 13200 रुपये जमा कराए। पीड़ित को पड़ताल करने पर पता चला कि कंपनी फर्जी है। उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। अब थाना नौगांवा सादात पुलिस ने मोहम्मद जावेद की तहरीर पर सुनीता व मैनेजर राकेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

### अमरोहा

कंपनी फर्जी है। उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। अब थाना नौगांवा सादात पुलिस ने मोहम्मद जावेद की तहरीर पर सुनीता व मैनेजर राकेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## सार संक्षेप

### मामूली विवाद में मारपीट, दंपति समेत तीन घायल

गजरोला। मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में दंपति समेत तीन लोग घायल हो गए। घटना शहर के मोहल्ला मायापुरी की है। घर के आगे कूड़ा डालने को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद होने के बाद मारपीट हो गई थी। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला मायापुरी निवासी वेदप्रकाश व देवेंद्र का घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट में वेदप्रकाश व उसकी पत्नी देवती व दूसरी तरफ से देवेंद्र घायल हो गए। तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना की तहरीर दोनों तरफ से पुलिस को दी गई है। प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा ने जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही।

### ट्रक व कार की टक्कर के बाद चालकों में मारपीट

गजरोला। ट्रक व कार में टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहनों के चालक भिड़ गए, हाथापाई हुई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक हंगामे का माहौल रहा। हालांकि बाद में दोनों चालकों के बीच समझौता हो गया। रविवार दोपहर आगरा से एक ट्रक नजीबाबाद जा रहा था। गजरोला चौपला पर वाहनों की भीड़ लगी थी। चालक ने ट्रक मोड़ा तभी वहां खड़ी कार में ट्रक की टक्कर लग गई। जिसके बाद दोनों वाहनों के चालकों के बीच विवाद बढ़ गया, हाथापाई शुरू हो गई। अफरातफरी का माहौल रहा। कार क्षतिग्रस्त हो गई। झगड़ा होते देख भीड़ जमा हो गई। लोगों के समझाने पर दोनों वाहनों के चालक शांत हुए। बाद में दोनों चालकों के बीच समझौता हो गया। चौपला चौकी इंचार्ज संत कुमार ने तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही।

## पंचायत चुनाव में संवेदनशील बूथ पुलिस के लिए बनेंगे चुनौती

भास्कर न्यूज

अमरोहा। निर्वाचन आयोग ने भले ही अभी पंचायत चुनाव की घोषणा न की हो, लेकिन सरकारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। पुलिस-प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए खाका तैयार कर लिया है। जिले में चिन्हित संवेदनशील, अति संवेदनशील व अतिसंवेदनशील प्लस बूथ पुलिस के लिए चुनौती साबित होंगे। इन बूथों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तेजी से सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। पिछले कई चुनाव में हुए विवादों को ध्यान में रखकर इस बार 40 फीसदी से अधिक बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसमें संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणी में शामिल हैं। संवेदनशील बूथों पर



### बूथों का ब्योरा

- संवेदनशील मतदान केंद्र 269, स्थल 540
- अतिसंवेदनशील केंद्र 189, स्थल 453
- अतिसंवेदनशील प्लस केंद्र 63 स्थल 186
- सामान्य मतदान केंद्र 306, स्थल 553

मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे। पुलिस-प्रशासन द्वारा संदिग्धों की प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

## किसान व गरीब-मजदूर विरोधी है भाजपा सरकार : योगेंद्र

भास्कर न्यूज

अमरोहा। राष्ट्रीय लोकदल के चलो गांव की ओर अभियान के तहत रविवार को विधानसभा के गांव कांकर सराय में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों को पार्टी की नीतियां बताई गईं। जिलाध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह ने भाजपा को गरीब, मजदूर और किसान विरोधी बताया। कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार



काले कानून पास कर देश के अन्नदाता को बर्बाद करने का काम कर रही है। देश के अन्नदाता की आज जो दुर्दशा भाजपा शासन में हो रही है, वह बेहद निंदनीय है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतान होगा।

## आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक से जगी उम्मीद

अमरोहा। पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक के चलते आपत्तियां दर्ज कराने वालों में हलचल देखी जा रही है। उनमें सीटों में बदलाव की उम्मीद जगी है। गांव की चौपालें सजने लगी हैं। हर जुबान पर सिर्फ पंचायत चुनाव की चर्चा है। जिले में ग्राम प्रधान के 597, बीडीसी के 683, जिला पंचायत सदस्य के 27, ब्लॉक प्रमुखों के छह, ग्राम पंचायत सदस्य के 7271 पदों पर पंचायत चुनाव कराया जाएगा। ग्राम प्रधान पद पर

363, बीडीसी पद पर 19, जिला पंचायत सदस्य पद पर 12 आपत्तियां आई थीं। हाइकोर्ट ने पंचायत आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी है। तभी से दावेदारों में हलचल बढ़ गई है। कई लोगों में उम्मीद जगी है कि सीटों में फिर बदलाव हो सकता है। इसे लेकर गांव की चौपालें सज गई हैं। आरक्षण को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आपत्तियां दर्ज कराने वालों की निगाहें आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर टिकी हैं।

## सुन लीजिए! नई परंपरा डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गजरोला। आगामी त्योहारों व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने ग्रामीणों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गांवों में बैठक करके ग्रामीणों को नई परंपरा नहीं डालने की हिदायत दी जा रही है।

रविवार को पुलिस ने क्षेत्र के लठीरा गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की तथा आगामी त्योहारों व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही नई परंपरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी। रविवार दोपहर बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा ने कहा कि होली का त्योहार व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रत्येक शराब आदि देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। कहा कि शराब की तस्करी करने वालों की सूचना पुलिस को दी। किसी का प्रलोभन न स्वीकार करें। कहा कि शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई परंपरा डालने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

## कार से शराब की 28 पेटी बरामद, दो गिरफ्तार

भास्कर न्यूज

गजरोला। पुलिस ने सेंद्रे कार से अवैध शराब की 28 पेटी बरामद की। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पेटियों में यूपी व अरुणाचल प्रदेश की शराब थी। बिना नंबरों की सेंद्रे कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब व कार कब्जे में ले ली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके चालान कर दिया है।

चुनाव के अलावा होली पर्व को लेकर शराब की डिमांड बढ़ गई है। जिसके चलते तस्करी भी सक्रिय हो गई है। रविवार की सुबह सेंद्रे कार में यूपी व अरुणाचल प्रदेश की शराब की 28 पेटी अवैध शराब बरकर आरपी तस्करी के लिए ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। खाद गुजर तिराहे पर पुलिस को चेकिंग करता देखा आरोपी रायपुर शुभाली को जाने वाले रास्ते की ट्रफ मुड़ गए। पुलिस ने पीछा करके कार को घेर लिया। भागने की



कोशिश कर रहे कार में सवार दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से 28 पेटी शराब की बरामद की। सीओ सतेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तारी का पदांफाश किया। बताया कि 28 पेटी शराब करीब दो लाख रुपये की है। पकड़े गए आरोपी सैदनागली थाना क्षेत्र इंकौदा निवासी सुकन पुत्र हरपाल व मुरादाबाद के कटधर थाना क्षेत्र के गोविंदनाग मोहल्ला निवासी दीपक गौड़ पुत्र विपिन कुमार गौड़ हैं। दोनों आरोपी बिना नंबरों की कार से अवैध शराब

## नौनेर में फिर दिखाई दिया तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत



गजरोला। नौनेर गांव में शनिवार की रात एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया। गांव के ही निकट कोल्हू पर काम करने वाले लेवर के लोगों ने तेंदुआ को देख शोर मचा दिया। वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए लेकिन तब तक तेंदुआ अहां से भाग चुका था। वन विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई लेकिन टीम गांव नहीं पहुंची। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

खादर क्षेत्र में तेंदुए का शोर बरकरार है। नौनेर गांव में तेंदुआ कई बार दिखाई दे चुका है। तीन दिन पहले चास लेने खेतों में गई महिलाओं को तेंदुआ दिखाई देना देखकर एक महिला बेहोश हो गई थी। कई घंटों बाद महिला को होश आया था। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। किसान अकेले खेतों पर जाने से डर रहे हैं। शनिवार की रात तेंदुआ फिर से गांव के निकट

कोल्हू पर काम करने वाले लेवर के दिखाई दिया। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भाग गया। गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उधर क्षेत्रीय वन अधिकारी करन सिंह ने बताया कि तेंदुए की पुष्टि नहीं हो रही है। पुष्टि होने के बाद उसे पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

## शराब की तस्करी : सुकन का दिल्ली में जैस का कारखाना था।

उसे काफी नुकसान हुआ तो कारखाना बंद करना पड़ा। इसके बाद उसने कोई दूसरा व्यापार किया लेकिन उसमें भी घाटा हो गया। पुलिस के मुताबिक सुकन पर 18 लाख रुपये का कर्ज हो गया। उस कर्ज को उतारने के लिए सुकन ने शराब की तस्करी शुरू की लेकिन वहां भी पकड़ा गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सुकन ने खुद बताया कि कर्ज को उतारने के लिए शराब की तस्करी शुरू की थी।

“यह पानी पाउच के प्लांट खाद्य एवं औषधि विभाग से बिना अनुमति एवं नगरीय प्रशासन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही बेचे जा रहे हैं।”



भास्कर न्यूज

**आगरा।** भीषण गर्मी के मौसम में गुले की प्यास बुझाने का सस्ता व सुलभ रास्ता पॉलीथिन पाउच का पानी आपको बीमार कर सकता है। शहर, गांव, देहात में ठंडे पानी के नाम पर मोटा जहर बेचा जा रहा है। दुकानदार प्रतिबंधित व मानकों के विपरीत पॉलीथिन के पाउच में प्रदूषित पानी बेच रहे हैं। आगरा की बात करे तो शहर, गांव, देहात के इलाकों में खुलेआम यह धंधा जोरों से चल रहा है। जब अखबार के संवाददाता ने इसकी अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। आपको बता दें कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे पीने के पॉलीथिन पानी पाउच का मोटा कारोबार भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। पानी पाउच के इस बढ़ते कारोबार को देखते हुए मोटा मुनाफा कमाने के लिए मानकों के विपरीत पानी पाउच बनाने व बेचने वाले छोटे बड़े दुकानदार पूरे तौर पर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आम लोगों की सेहत पर इसके

विपरीत प्रभाव के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के छोटे बड़े ढाबे किराना दुकान और चाय व पान एवं कोल्डड्रिंक की दुकानों पर पानी के पाउचों की बिक्री तेज हो गई है। न निर्माण की न समाप्त की तारीख: एक रुपए में बिकने वाले पाउच अब दो से तीन में बेचे जा रहे हैं। पॉलीथिन पाउच में बंद पानी कहने को तो आइएसआई मार्क वाला फिल्टर पानी है। लेकिन हकीकत में यह पानी स्थानीय स्तर पर ही बिना किसी मानक के पैक किया जा रहा है। गौर से देखा जाए तो बाजार में मिलने वाले अधिकांश पानी पाउच पर न तो पैकिंग की तारीख अंकित होती है न एक्सपायरी या सम्वन्धित विभाग की बिना अनुमति के संचालित है। ये पानी पाउच के प्लांट खाद्य एवं औषधि विभाग से बिना अनुमति एवं नगरीय प्रशासन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही बेचे जा रहे हैं। इन अधिकांश पाउचों में न तो वाटर प्लांट का पता लिखा है न ही ई-मेल पता होता है। फिर भी यह नकली पाउच बाजार

पॉलीथिन पाउच का पानी कहीं आपको बीमार न कर दे

प्यास तो बुझेगी, बीमारी भी लगेगी

- ▶ मानकों को ताक पर रखकर पैक होता पॉलीथिन पाउच में पानी
- ▶ शहर में प्रतिबंधित है पॉलीथिन फिर भी बेचा जा पॉलीथिन में पानी
- ▶ शहर, गांव, देहात में रोजाना खुलेआम चल रहा लाखों का धंधा
- ▶ सम्बन्धित विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई



सूत्रों से प्राप्त जानकारी के ये बिना किसी रजिस्ट्रेशन या सम्वन्धित विभाग की बिना अनुमति के संचालित है। ये पानी पाउच के प्लांट खाद्य एवं औषधि विभाग से बिना अनुमति एवं नगरीय प्रशासन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही बेचे जा रहे हैं। इन अधिकांश पाउचों में न तो वाटर प्लांट का पता लिखा है न ही ई-मेल पता होता है। फिर भी यह नकली पाउच बाजार

पाउचों की तुलना में शहर में अधिकतर बिना मानकों के बने पाउच काफी सस्ते दामों में दुकानदारों को बेचे जाते हैं। जो कि दुकानदार अपने फायदे के लिए लोगों को दूषित बदनूदार पानी पिलाकर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी की जानकारी के अनुसार बताया कि ब्रांडेड कंपनी के पानी पाउच की पैकिंग में 100 पाउच रहते हैं। जो कि दुकानदार को 75 से 80 रुपए में मिलती है जबकि नकली पानी पाउच की पैकेट जिसमें 100 पाउच होते हैं। वो अधिकतर 35 से 40 रुपए में मिल जाते हैं।

के लिए हानिकारक है जो कि लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। आइएसआई मार्क का होता दुरुपयोग नकली पाउचों पर आइएसआई मार्क का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। इस ओर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। ध्यान है ही तो नजराना मिलने पर सब नजरअंदाज कर देते हैं। **जिम्मेदार अधिकारी बैठें मौन :** बाजार में नकली पानी पाउच के संबंध में प्रशासन व खाद्य एवं औषधि विभाग को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखों पर पट्टी बांध अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। **यह है पाउच बेचने के नियम :** किसी भी कंपनी को पानी के पाउच निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस की जरूरत होती है। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अनुमति भी होना आवश्यक है। इसके अलावा पानी के पाउचों को पैकिंग तारीख दी जाती है। जिसमें उस तारीख से निर्धारित समयवाधि की भी जानकारी देना अनिवार्य होता है।

स्मार्ट सिटी के नाम पर आगरा से धोखा

▶ शहर का निगरानी तंत्र फेल हाइवे पर लगे कैमरे बंद

भास्कर न्यूज



**आगरा।** सड़कों पर लगे कैमरे देखकर लोग स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं। इन कैमरों की निगरानी में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह शहरवासियों का भ्रम है जो टूट गया। हाइवे पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। यह खुलासा तब हुआ जब सोशल एंक्टिविस्ट पुलिस और नरेश पारस स्मार्ट सिटी के कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज देखने गए। हाइवे पर लगे कैमरे बंद पाए गए। नरेश पारस ने इस संबंध में डीएम, महापौर, नगर आयुक्त तथा एसएसपी को पत्र भेजा है। आईएसबीटी पर लुटा मोबाइल नौ मार्च को रात लगभग 11:45 बजे आईएसबीटी चौराहा हाइवे पर सामाजिक

हरिपवंत थाने के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह एवं नरेश पारस नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी के कार्यालय सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने गए थे। कैमरों में देखा गया तो पता चला कि हाइवे पर लगे सभी कैमरे बंद हैं। नरेश पारस ने डीएम को भेजे अपने पत्र में कहा है कि चोर और लुटेरों के कैमरे बंद होने की जानकारी है इसलिए वह हाइवे पर ही वारदात को अंजाम देते हैं। जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाती है। स्मार्ट सिटी के कैमरों पर शहर की जनता विश्वास करके निश्चित रहती है लेकिन ये सच्चाई जनता का भ्रम तोड़ रही है। नरेश पारस ने डीएम पीएन सिंह, महापौर नवीन जैन, नगर आयुक्त निखिल फुंडे तथा एसएसपी बबलू कुमार से मांग की है कि हाइवे पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चालू कराए जाएं।

आगरा

कार्यकर्ता नरेश पारस से एक बाइक सवार लुटेरा मोबाइल लूट ले गया था। चीता मोबाइल नौ लुटेरा का पीछा किया था लेकिन हाथ नहीं आया। थाना हरिपवंत में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। हाइवे पर लगे लुटेरे के आरोपी लुटेरे की पहचान के लिए

सिरसागंज विधानसभा प्रमारी रविकांत गर्ग ने सिरसाखास में लगाई चौपाल

**सिरसागंज/फिरोजाबाद।** सिरसागंज ग्राम पंचायतों के चुनावों को लेकर प्रदेश के मंत्री सिरसागंज विधानसभा प्रभारी रविकांत गर्ग व भाजपा के चरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने गांव सिरसाखास के प्राथमिक विद्यालय पर चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग, नगर चेयरमैन सोनी शिवरते, महिला आयोग की सदस्य सुपन चतुर्वेदी, का फूल मालाओं से स्वागत किया, वहीं विधानसभा प्रभारी ने सरकार द्वारा चलने वाली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। चौपाल में जनता की समस्याओं को सुना सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की जानकारी हासिल की और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया वहीं ग्राम पंचायतों



सिरसागंज

में भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री अविनाश भोले भाजपा नगर अध्यक्ष केवल गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री शशि कला यादव, सुनीता यादव अजय यादव इंजीनियर रामब्रेश यादव, लारा यादव, कंमिंट अग्रवाल, सौरव जादौन, डॉक्टर संतोष, डॉ प्रताप सिंह यादव, सोनी राजपूत, मोनू कुशवाहा, सौरभ जादौन, निशी शर्मा, अमिता पोरवाल, रेनु उपाध्याय, आशा जादौन व भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

जिला पंचायत सदस्य ने चुनावी सभा का किया आयोजन

भास्कर न्यूज

**आगरा/एतादपुर।** सिस्टम सुधार संगठन के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 प्रत्याशी वीके चौधरी द्वारा आज अपने गांव मलपुर में सम्मानित बुजुर्गों एवं युवाओं तथा वार्ड नंबर 6 की सम्मानित जनता का आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया गया। जिसमें संगठन के समस्त सम्मानित प्रत्याशी पदाधिकारी एवं सम्मानित सहयोगीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि संगठन द्वारा वार्ड नंबर 6 से वीके चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चौधरी साहब ने अपनी समर्थन में ग्राम मलपुर में एक बड़ी चुनावी सभा का आयोजन किया जिसमें समस्त गांव एवं क्षेत्रीय सम्मानित बुजुर्ग एवं युवा साथी गणों ने अपना आशीर्वाद व सहयोग एवं समर्थन वीके चौधरी जी को दिया। सभी सम्मानित बुजुर्गों एवं



प्रत्याशी के समर्थन में किया जाएगा

युवा साथियों ने चौधरी साहब को आश्वस्त किया कि हम कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं तथा विजयी बनाने के लिए हर संभव साथ देने एवं सहयोग करने का वादा किया। आपको बता दें कि संगठन द्वारा एतादपुर तहसील के प्रत्येक वार्डों में अपना प्रत्याशी घोषित किया जा रहे हैं। संगठन द्वारा बहुत जल्द सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे तथा रणनीति के अनुसार एक बड़ा पैदल मार्च अपने

बैंड-बाजे के साथ कलश-यात्रा निकाली

शिकोहाबाद। परमपिता

परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से स्व श्रीमती कुसुम सेगर की स्मृति में आवास विकास कॉलोनी स्थित विश्व भारती स्कूल के समीप बने पार्क में श्रीमद् भागवद् कथा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे आवास विकास कॉलोनी के कलश यात्रा बैंड-बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। जिसका शुभारंभ सीओ



शिकोहाबाद

बलदेव सिंह खन्डा ने कलश उठाकर किया। कलश यात्रा बिजली की सड़क के समीप से कलशों में गंगाजल भरकर मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। इस यात्रा का लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं भक्तों के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहन कर सम्मिलित हुईं। कथा का वाचन रविन्दन निमा जी महाराज द्वारा

वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है सभी लोग कोविड का टीका लगवाएं : कटेरिया

भास्कर न्यूज

**उड़ी/इटावा।** वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन हर बुजुर्गों और उम्र दराज लोगों के लिए अति आवश्यक है। इस वैक्सीन से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी लोग इस वैक्सीन का उपयोग करें। यह बात पूर्व राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष सांसद रामशंकर कटेरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उड़ी में वैक्सीन के द्वितीय चरण का शुभारंभ करते हुए कही। कटेरिया ने स्पष्ट कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने न केवल इस वैश्विक महामारी को देश में पनपने से रोकने में अपनी भूमिका सिद्ध की वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का अपने देश में ही उत्पादन कर विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन भेजकर सहायता की। इस तरह देश में ही उत्पादित की जाने



वाली इस वैक्सीन के लगाने के लिए

निर्धारित कार्यक्रमों का पालन करते हुए आप सभी लोग समय से व्यक्तियों लगवाते रहे। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष अजय धाकरे ने कहा कि देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। **इटावा** होगी तो ऊपर की मंजिल बनाने में आपको बहुत कठिनाई होगी भाजपा की सदर विधायक सरिता भटौरिया ने केंद्रीय एवं प्रदेश के नेतृत्व द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उपस्थित जनों से अपील की केवल भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में अपना पूर्ण योगदान दी।

माजपा की ग्राम चौपाल में देखने को मिला लोगों का आक्रोश

भास्कर न्यूज

**निवाड़ी कला/इटावा।** महैवा ब्लाक के ग्राम इकधरा में भारतीय जनता पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम समस्या ग्राम पंचायत जिला पंचायत सदस्य चुनाव की चर्चा की गई। अशोक चौबे ब्लाक प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी सरकार ने किसानों की मदद की और कहा कि सभी ग्राम लोगों को कोटा से चीनी, गेहूँ, चावल सभी को मिल रहा है। ब्लॉक की पंचायतों में सभी ग्राम लोगों को शौचालय का लाभ मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शौचालय का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही सभी लोगों को मुफ्त में कनेक्शन बिजली की सुविधा दी गई। मुक्त शौचालय की व्यवस्था की गई। बहन बेटियों को पढ़ाने की सुविधा की गई।

सपा अपने दम पर लड़ेगी पंचायत चुनाव : राम गोपाल

▶ सपा, प्रसपा का आमने-सामने चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है

भास्कर न्यूज

**जसवन्तनगर/इटावा।** समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जसवन्तनगर कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जिससे अब इस क्षेत्र में सपा और प्रसपा का आमने-सामने चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जसवन्तनगर क्लब के सभागार में जिला पंचायत के वार्ड संख्या दो से संभावित प्रत्याशी अमन यदुवंशी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि अब कोई किसी को डरा धमका कर बैठा नहीं पाएगा

और इस तरह निर्विरोध चुनाव कराने के जमाने लद गए। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि यदि किसी के साथ डरा धमका कर बिठाने की कोई धटना होती है तो वे उन्हें जानकारी दे तुरंत कार्यवाही करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव हमारा प्रत्याशी कौन-कौन से है यह सब जानते हैं। अभी लिस्ट घोषित नहीं की गई है लेकिन लिस्ट की जल्दी आ जाएगी। इस दौरान वार्ड नंबर 1 से दावेदारी ठोक रहे पूर्व ब्लाक प्रमुख अनवर सिंह तथा वार्ड नंबर 3 से दावेदारी ठोकने वाले मोहित उर्फ सनी



और पार्टी कार्यकर्ता हर स्तर पर

प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुटा जाएं कार्यक्रमों उनके साथ पूर्व दाता प्राप्त राज्यमंत्री विश्राम सिंह यादव, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व सांसद प्रेमदास कटेरिया, एमएससी अरविंद यादव, संतोष यादव, देवेंद्र शर्मा, राकेश यादव, होती लाल यादव, दुष्यंत सिंह यादव, भुजवीर सिंह यादव, विनोद यादव, सुरेश यादव, विद्याराम यादव, रामचंद्र यादव, सुनील यादव, लक्ष्मीकांत चौरसिया, नीरज यादव, यशपाल सिंह एडवोकेट आदि शामिल रहे।

एनएसएस छात्र-छात्राओं ने चलाया सफाई अभियान



भास्कर न्यूज

**टूंडला।** रामसिंह महाविद्यालय नगला सिक्कर द्वारा ग्राम नगला मुरली में तृतीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएस छात्र-छात्राओं ने परिक्रमा मार्ग एवं पूजा स्थल को साफ सफाई की। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के एनएसएस अधिकारी प्रो. सुभाष चन्द्र द्वारा मताधिकार के व्यापक स्तर पर

प्रयोग की जानकारी देने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में डा. बीपी सिंह ने एनएसएस छात्र-छात्राओं को ग्रामीणों को शैक्षिक अवसरों की जानकारी देने के लिए मार्गदर्शित किया गया। प्रबंधक डा. डीपी सिंह ने प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा के स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस मौके पर पूजा सिंह, मंजू सिंह, रौनक धाकरे, संदीप ओझा के अलावा कालेज स्टाफ उपस्थित रहा।

सवाल ढाई लाख में मकान बनवा रही सरकार, लेकिन निगम 37 लाख 32 हजार में सीढ़ी का कर रही जीर्णोद्धार

क्या निगम आंख मूंद कर उठा रही है टेंडर?

भास्कर न्यूज

**फिरोजाबाद।** एक तरफ केन्द्र सरकार 30 वर्ग मीटर की जमीन पर 2 लाख 50 हजार में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनवा रही है। तो वहीं दूसरी ओर निगम मात्र एक मार्केट की एक मंजिला सीढ़ी के जीर्णोद्धार पर 37.32 लाख खर्च बतौस हजार रुपये खर्च कर रही है। यही सवाल उठता है कि किसकी आंकड़ेंवाजी में झोल है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में या फिर निगम की क्योंकि 2.50 लाख में सरकार बना रही मकान और निगम कह रही कि एक मंजिला मकान की सीढ़ी पर 37.32 लाख खर्च होता है। बताते चले कि जब दैनिक भास्कर टीम की नजर सुभाष तिराहे स्थित नगर निगम की एक मार्केट की जीर्णोद्धार सीढ़ी के बगल में लगे नगर निगम के निर्माण कार्य के बोर्ड पर पड़ी तो जो कुछ उस पर लिखा था उसने विचार करने पर मजबूर कर दिया। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि वहां लगे निगम के निर्माण सम्बन्धित बोर्ड पर लिखा क्या था।



फिरोजाबाद

उस पर लिखा था कि " सुभाष तिराहे पर स्थित नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से लगी सीढ़ी का जीर्णोद्धार का कार्य जिसमें 37.32 लाख रुपये आएंगी। जिसमें चिनाई का अनुपात 1:4,

प्लास्टर 1: 4, पी.सी.सी. 1: 5: 10, आर.सी.सी. 1:1:5:3 ;150 उ.उ. यानि कि 6 इन्चों की होगी।" जिसे पढ़कर रुका नहीं गया और यह देखने जा पहुंचे कि अखिर ऐसी कौन सी सीढ़ी का जीर्णोद्धार हो रहा है कि जिस पर एक सीढ़ी के जीर्णोद्धार पर लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आ रहा है क्योंकि उसी सीढ़ी के बकायेदारों को जीर्णोद्धार पर लगे हुए हैं आर्किटेक्चर के अनुसार इस तरह की सीढ़ियों के निर्माण लागत पर लगभग एक, सवा लाख रुपये का खर्च आता है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि निगम ने सीढ़ी के जीर्णोद्धार का टेंडर आंख मूंद कर उठा दिया है या फिर सीढ़ी के जीर्णोद्धार की आड़ में अपने अनुचित हितों को साधने का कुप्रयास किया है। जब यह सीढ़ी निर्माण कार्य के लगे बोर्ड के सम्बन्ध में निगम के कुछ आला अधिकारियों से वार्ता की गई तब नाम न छापने की शर्त पर सीढ़ी के जीर्णोद्धार सम्बन्धित टेंडर पर खर्च लिखी जाने वाली रकम को लेकर पूरा ठीकरा महापौर के नाम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के टेंडर महापौर की सहमति से उठाए जा रहे हैं।

‘एकमुश्त समाधान योजना’ 10 मार्च से 20 अप्रैल तक लागू

भास्कर न्यूज

**फिरोजाबाद।** जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं जिला प्रबन्धक, उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. राजमती ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों को बताया गया है कि उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा वसूली हेतु नवीन ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) लागू की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण गृहिता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करानी होगी। लाभांशों के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहिता आच्छादित होंगे जिनके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष दर्शाई हो रही है, अर्थात् जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की है अथवा अल्प अल्प धनराशि जमा की है। उन्होंने बताया कि जनपद के उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं के समस्त ऋण गृहिताओं को सूचित किया जाता है कि वह ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) का लाभ प्राप्त करने हेतु 10 मार्च 2021 से दिनांक 20 अप्रैल 2021 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. कक्ष से. 2022 बी, द्वितीय तल, विकास भवन, सिविल लाइन, फिरोजाबाद पर उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

“जिला अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल न किये जाने के कारण शिवेन्द्र पाल सिंह को 'दसवीं बार' जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।”

## मुरादाबाद, अलीगढ़ मण्डल

चंदौसी, बदायूं बरेली, रामपुर, हाथरस, कासगंज

दैनिक भास्कर

सोमवार, 15 मार्च 2021

नोएडा

09

# उप्र. मा. शिक्षक संघ का वार्षिक चुनाव सम्पन्न

शिवेन्द्र पाल सिंह  
जिला अध्यक्ष व संजीव  
कपूर बने जिला मंत्री

भास्कर न्यूज

चंदौसी। रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नारायण गुट) की जिला कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें शिवेन्द्र पाल सिंह को दसवीं बार निर्विरोध जिला अध्यक्ष व संजीव कपूर को जिला मंत्री नियुक्त किया गया। जनपदीय कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव हेतु इंटरमीडिएट कॉलेज



चंदौसी

बहजोई में आयोजित चुनाव कार्यक्रम चुनाव अधिकारी रणवीर यादव के प्रतिनिधि प्रधानाचार्य गोविन्द प्रसाद के निर्देशन में प्रारंभ

हुआ। जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल न किये जाने के कारण शिवेन्द्र पाल सिंह को 'दसवीं बार' जिला अध्यक्ष

निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं संजीव कुमार कपूर जिला मंत्री निर्वाचित हुए। इनके साथ मोहम्मद रिजवान खान कोषाध्यक्ष, तरंग

गुप्ता संगठन मंत्री, गनेश सिंह आय-व्यय निरीक्षक, नसीम हुसैन व विमला सीनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नीरजा को जिला संयुक्त मंत्री चुना गया। चुनाव कार्यक्रम में एके सिंह, मनोज कुमार, रामप्रकाश, राम प्रसाद गौतम, राजेंद्र कुमार राणा, अरुण मिश्रा, शाजिया खानम, विमलेश कुमारी, डॉ उमेश कुमार, धनंजय आर्य, आर एन निगम, अब्दुल जाहिद, ज्वाला प्रसाद सिंह, हरिप्रसाद मौर्य, उस्मान खान, योगेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार, मदन प्रसाद, गुप्ता, पंचम सिंह रामसेवक, दीपेंद्र सिंह, मोहम्मद मकसूद, इकराम वेग, शकील अहमद, ओम प्रकाश, जुबेर आलम, अब्दुल सलाम, मुकेश कुमार शर्मा सहित करीब 50 शिक्षक उपस्थित रहे।

## तमके के बल पर बदायूं में नाइक व नगदी लूटी

अलीगढ़। मडराक इलाके में पुलिस

से बेखौफ एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने मथुरा बाईपास स्थित एक बाग के निकट से कारखाने में काम करने जा रहे दो लोगों को शनिवार की रात को रोक लिया और बाइक मोबाइल व नगदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों को इधर उधर तलाश किया लेकिन सफलता नहीं मिली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मडराक थाना क्षेत्र के गांव मईनाथ निवासी प्रेमपाल सिंह पुत्र रामवीर व भीमसेन रूफ सुमन पुत्र लखपत सिंह पला रोड स्थित एक फैक्ट्री में इलाई का काम करते हैं।

## हिंदू जागरण मंच ने की लव जिहाद पर चर्चा

भास्कर न्यूज

बदायूं। बिसौली में हिन्दू जागरण मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लव जिहाद एवं आन्तरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बिसौली तहसील से सैकड़ों कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच में शामिल हुए। कार्यक्रम का अध्यक्षता नगर कार्यवाहक नीरज ने की एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगपाल सिंह एवं युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमिषेक सक्सेना की विशेष भूमिका रही। इस कार्यक्रम में हिन्दू जागरण मंच के नए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। जिनमें मुकेश वर्मा को हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष,



अचल शर्मा को जिला महामंत्री, पुनीत कुमार आसल को जिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर मोहन लाल को जिला उपाध्यक्ष, मुकेश प्रजापति नगर उपाध्यक्ष बिसौली, नितिन मौर्य

नगर मंत्री बिसौली, शशी कुमार नगर मंत्री बिसौली, राजन मिश्रा नगर अध्यक्ष मुंडिया धुरेकी आदि को पद दिए गए। कार्यक्रम की व्यवस्था पुनीत शाक्य एवं उनकी इकाई के द्वारा हुई।

## पुलिस-परिवार परामर्श केन्द्र का सहायनीय कदम

## गिले-शिकवे दूर कर एकसाथ रहने को राजी हुए 4 जोड़े

भास्कर न्यूज

बदायूं। पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र के सहयोग से दिनांक 14 मार्च 2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निदेशन में प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त काऊंसलर प्यारें सिंह यादव, अशोक खुराना, एमएम फरशांरी, रजनी मिश्रा, मधु गौतम, सीमा यादव व सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। जिनके द्वारा परिवारिक समस्याओं की कुल 13 फाइलों में काउंसलिंग



बदायूं

हुई जिनमें से 2 फाइलों में समझौता, तथा 3 फाइलों निरस्त की गयीं। कुल 5 फाइलों का निस्तारण किया गया एवं दोनों उपस्थित पक्षों को सुना गया और उनकी समस्याओं के

निवारण पर विचार किया गया, जिनमें 2 परिवारिक समस्याओं के मामलों में दोनों पक्षों की समस्या को सुनकर उन्हें समझाकर दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौता

कराया गया, जिन मामलों में एक पक्ष उपस्थित रहा उन्हें अग्रिम लिथि दी गयी तथा दूसरे पक्ष को उस लिथि पर आने हेतु सूचित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा मौजूद प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र महिला सहायता प्रकोष्ठ के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक परिवारिक समस्याओं को सुनकर दोनों पक्षों को सहमत कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा सभी परिवारिक मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

## हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़। इगलास कोतवाली पुलिस ने विगत सात माच को गांव नगला फलाहार के युवक की हत्या के मामले में तीसरे आरोपित को गिरफ्तार किया, वह घटना के बाद से फरार चल रहा था तो वही पहले ही पुलिस दो आरोपितों को जेल भेज चुकी है। गांव नगला फलाहार निवासी 28 वर्षीय हैदरअली पुत्र सौदानी खां सासनी रोड, ब्यौही चौराहे पर हेयर सैलून चलाता था। इसके पड़ोस में गांव के इमरान की मीठ दुकान है। इमरान ने हैदर के रिश्ते के बहनेई अजीनुल रहमान उर्फ गुडू निवासी बड़ा खुर्द से मजदूरी करने के लिए एडवांस लिया था। वह न तो मजदूरी करने गया और न एडवांस वापस किया। लेन-देन को लेकर

सात माच की सुबह 10:30 बजे गुडू की इमरान व इसके भाइयों से दुकान पर कहासुनी हो गई। हैदर भी मौके पर पहुंच गया और बीच-बचाव कर दिया। बाद में इमरान, जुम्मन व जंगलिया एक राय होकर पहुंचे और हैदर के पेट में चाकू धोप दिया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए लेकर जाते समय रास्ते में मौत हो गई, तो वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। मुक्त के पिता ने जुम्मन, कुन्ना उर्फ इमरान, जंगलिया पुत्राण सैलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने पुलिस टीम के साथ सलमान उर्फ जंगलिया को रविवार की सुबह 10 बजे सासनी रोड डबल नहर पुल से पकड़ा है।

## जनपद में फर्जी पत्रकार बनाने का गोरखधंधा जोरों पर

भास्कर न्यूज

अलीगढ़। जनपद में इन दिनों फर्जी पत्रकार बनने और बनाने का गोरखधंधा तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनपद में सड़कों पर चलने वाली बहुत ही ऐसी गाड़ी देखने को मिल जाती है जिन पर प्रेस या मीडिया लिखा हुआ हो। कई जगह तो पुलिस ने ऐसे फर्जी पत्रकारों के गैंग सहित उनकी बिना कागजात की गाड़ियों तक को भी सीज करना शुरू कर उनके फर्जी प्रेस आईडी कार्ड के आधार के पर मुकदमा भी लिखना शुरू कर दिया है और यह हुआ भी बहुत अच्छा क्योंकि फर्जी पत्रकारों के चलते जो सम्मानित पत्रकार हैं उन्हें फर्जी पत्रकारों के चक्कर में स्वयं अपमानित होना पड़ता है। सूर्यों की माने तो जनपद में फर्जी

कुछ संस्थाएं तो अपनी संस्था का कार्ड बना देती हैं और बेरोजगार युवकों को गुमराह कर उनसे धन उगाही करवाती हैं

पत्रकार अपनी गाड़ियों में बड़ा-बड़ा प्रेस का मोनोग्राम तो लगाते हैं ही साथ ही फर्जी आईडी कार्ड भी बनाकर अधिकारियों व लोगों को रौब में लेने का प्रयास भी करते हैं। कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं अतिरिक्त मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने वाहनों पर मीडिया का मोनोग्राम लगाकर अन्य मीडिया कर्मियों को बदनमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

युवक पकड़े जाते हैं तो यह संस्थाएं भाग खड़ी होती हैं। जनपद में लगातार बढ़ती फर्जी पत्रकारों की संख्या से न सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि अधिकारी भी परेशान हैं, तो वहीं समाज सम्मानित पत्रकार भी फर्जी पत्रकारों के कारणों अपमानित महसूस करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं फर्जी पत्रकार पुलिस चेंकिंग के दौरान कर्मियों को अपना फर्जी कार्ड दिखाते हुए धोस दिखाते हैं और कभी-कभी तो बतमीजी पर भी उल्लाह हो जाते हैं, तो वहीं सूर्यों की माने तो ऐसे फर्जी पत्रकारों पर न जाने ऐसे कितने अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लगाकर अन्य मीडिया कर्मियों को बदनमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

## कांग्रेसियों ने बनाई पंचायत चुनाव की रणनीति

विभिन्न समाज के लोगों को दिलाई पार्टी की सदस्यता

भास्कर न्यूज

हाथरस। पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को ब्लॉक हाथरस के ग्राम तिरपस में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सुंदर लाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर विभिन्न समाज के दिनेश कुमार, सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, लाखन सिंह कुशवाहा, बहादुर



सिंह, ललित कुमार, विनोद कुमार बघेल, श्याम सुंदर कुशवाहा आदि ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक पदाधिकारियों व न्याय पंचायत अध्यक्षों को पंचायत चुनावों की तैयारियों में पूरी सक्रियता से जुट जाने की अपील की। इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं

ने पंचायत चुनावों में अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। बैठक में जिला उपाध्यक्ष बीना गुला एडवोकेट, जिला सौजन महासचिव पंडित ऋषि कुमार सांशिक, जिला सचिव हरि शंकर वर्मा, पिंठू खटीक, विपिन कुमार शर्मा, सिया राम, राजपाल सिंह, प्यारे लाल, देवेन्द्र कुमार शर्मा, भुवनेश कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार, विनोद द्विवेदी, दिनेश कुमार, भारतेन्दु सिंह, पीके शर्मा, कृष्ण कान्त आदि उपस्थित थे।

## मुरादाबाद में पत्रकार से मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण

भास्कर कार्यालय पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री नानक दीन

भास्कर न्यूज

बरेली। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है सभी अपनी अपनी विज्ञापन बिज्ञान में लग गए हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह तो वक्त ही बताएगा मगर सभी पार्टियों जोर आजमाइश में लग गई है। सबको साधना और सब को समझाना सभी पार्टियों की रीति और नीति बन गई है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री नानक दीन बरेली पहुंचे बरेली के भाजपा नेता मुकेश यादव के घर जाने के बाद नानक दीन दैनिक भास्कर कार्यालय पहुंचे



जहां भास्कर टीम से मुलाकात की। भास्कर प्रतिनिधि ने नानक दीन से कुछ सवाल पूछे। सवाल: आप सपा के फाउंडर मेंबर थे और राज्य मंत्री थे सपा और भाजपा में क्या अंतर है? जवाब: सपा में पूरी जिंदगी बिता दी मगर अंत में क्या मिला सिर्फ दुदकार एक वर्ग की पार्टी बन गई थी सपा मगर भाजपा में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति ने दिल को छू लिया। सवाल: आपने भाजपा में आकर

क्या किया और आगे क्या करेंगे? जवाब: भाजपा ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा हूँ और आगे भी निभा लूंगा। पार्टी की नीति नीतियों को जनता तक पहुंचाना और लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाना ही कर्तव्य समझता हूँ। सवाल: अभी हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पत्रकारों से मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ क्या कहना चाहेंगे? जवाब: इस घटना की निंदा करता हूँ। किसी भी जनप्रतिनिधि को यह शोभा नहीं देता कि वह देश के चौथे स्तंभ जिससे पत्रकार कहा जाता है, के साथ अश्रद्ध भाषा का व्यवहार करें या फिर मारपीट करें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

## उलमा-ए-इराम ने की वसीम रिजवी के बयान की निंदा

बरेली। सुन्नी बरेलीवी मरकज

दरगाह आला हजरत से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के बयान की उलमा-ए-इराम ने सख्त से सख्त निंदा की। वसीम ने माज अल्लाह कुरान शरीफ की 26 आयतों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायित्व की है। इसको लेकर जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मिया ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा यह अल्लाह की नाजिल की गई पवित्र किताब हैं। चौदह सौ साल में पहली बार कोई ऐसा काफिर और फासिक पैदा हुआ है जिसे कुरान की आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने

वाली नजर आ रही है, वसीम जैसा इंसान मुक्त की अमन व शान्ति के लिए खतरा है। ऐसे इंसान पर एनएसए के तहत जेल में बंद कर देना चाहिए। ये ऐसा जाहिल है जिसे यह भी नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से नहीं थापत मुहब्बत फैला है, कुरान के एक एक हर्फ और एक-एक नुस्ते पर हमारा ईमान है, उसकी 26 आयतों को निकालना तो बहुत बड़ी बात है उसके एक नुस्ते को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। कुरान अल्लाह का मुकद्दस कलाम है उस में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती जैसा नाजिल हुआ वैसा ही कयामत तक रहेगा।

## एससीईआरटी लखनऊ में आयोजित हुई कार्यशाला

भास्कर न्यूज

शेरगढ़। बरेली। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं अब भारतीय प्राचीन वैदिक गणित से रूबरू होने के साथ ही गुणा भाग जोड़ घटाना जैसी दक्षताओं को हासिल कर गणित विषय में परांगत हो सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर वैदिक गणित को परिषदीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु उपयोगी सिधार्थों का निर्माण किया जा रहा है ताकि बच्चों को वैदिक गणित की अवधारणा से थलीभांति परिचित कराया जा सके। बता दें कि एससीईआरटी लखनऊ में वैदिक गणित की 8 से 10 मार्च तक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया जिसमें बरेली, मथुरा, बाराबंकी लखनऊ समेत विभिन्न जिलों के डायट प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग कर गुणनफल, भागखंडीकरण, समीकरण, फलन इत्यादि को सरलतम प्रक्रिया से हल करने के नियम एवं उनकी विधियों को जाना जो वैदिक गणित के 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्रों पर आधारित हैं। एससीईआरटी लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में



प्रतिभाग कर लौटे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली के डायट प्रवक्ता मनीष कुमार ठाकुर ने बताया कि भारतीय गणित की प्राचीन काल से ही अत्यंत उच्चवर्तला पूर्ण परंपरा रही है तथा इस परंपरा को चार चढ़ लगाते वाले अनेकों मनीषी रहे हैं जिनके अनवरत प्रयास से शून्य का आविष्कार भारत में संभव हुआ और पुनः दशमिक संख्या पद्धति का विकास तथा उसके फल स्वरूप छोटी-बड़ी संख्याओं को लिखना, बोलना और पहचान संभव हो सका है।

# लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी है विद्रोह की भावना: गर्ग

- नमक सत्याग्रह में शामिल अकेले जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं सुरेंद्र गर्ग
- देश के मौजूदा हालात से हैं व्यथित
- कहा- देश ने बापू के सिद्धांतों को मुला दिया

एजेंसी

सहारनपुर। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने के लिए 12 मार्च 1930 से देश में अपना ऐतिहासिक आंदोलन नमक सत्याग्रह शुरू किया था। सहारनपुर में भी यह आंदोलन चला था। जिसमें पुलिस



सुरेंद्र गर्ग।

ने नमक बनाने के दौरान मौजूद 63 में से 61 लोगों को जेल भेज दिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय लार्ड इर्विन के



लाला बाणुमल गर्ग।

बीच हुए समझौते के बाद इन्हें रिहा किया गया था। जेल गए उन 61 लोगों में शामिल स्वतंत्रता सेनानी लाला बाणुमल गर्ग के बेटे सुरेंद्र



गर्ग, जो नमक सत्याग्रह के दौरान साढ़े छह या सात वर्ष के थे और अपने पिता के साथ नमक बनाने के दौरान मौजूद थे और ब्रिटिश पुलिस द्वारा कम उम्र के कारण जेल नहीं भेजे गए थे, उस

ऐतिहासिक सत्याग्रह के एकमात्र जीवित साक्षी हैं, जो 98 वर्ष के हो गए हैं। उनकी सेहत बेशक उनके शरीर का साथ नहीं देती, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति गजब की है। गांधी के 1942 के अंग्रेजों भारत

छोड़े आंदोलन के तहत उन्होंने कानपुर में अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनका परिवार गांधीवादी है। लोहिया जी का उनके परिवार में खूब आना-जाना था। सुरेंद्र गर्ग का जन्म सहारनपुर के मटियामहल मोहल्ले में 1923 में हुआ था। उन्होंने 1929 में गांधी को सहारनपुर आगमन के दौरान देखा भर था, लेकिन गांधी को जीवन भर जीने का काम किया। सुरेंद्र गर्ग के देश के मौजूदा हालात से व्यथित है। उनका कहना है कि लगता है भारत ने बापू के विचारों और सिद्धांतों को छोड़ दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पिछले वर्ष 8 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में

सम्मानित करने के लिए बुलाया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था। भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जब महात्मा गांधी के हत्यारं नाथूराम गोडसे के सम्मान में कसीदे पढ़े थे तो विरोधस्वरूप सुरेंद्र गर्ग ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मिलने वाली पेंशन ठुकरा दी थी। वे कहते हैं कि वर्ष 2016 के बाद से देश में आईपीसी की धारा के बाद देशद्रोह की धारा 124 ए आईपीसी का इस्तेमाल नागरिकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए हो रहा है। स्वतंत्र और शक्तिशाली लोकतंत्र के लिए असहमति रखना

अत्यंत जरूरी है। सत्य को स्वीकार करने के लिए मन की स्वतंत्रता आवश्यक है। सत्तारूढ़ दल को नौकरशाही और न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। विद्रोह की भावना भी लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी है। इंदिरा की तरह का व्यक्ति और नेतृत्व नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में ही देश एक ओर संगठित रह सकता है और फल-फूल सकता है, लेकिन देश इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। आज स्वतंत्र समझ पर रोक लगाई जा रही है। मताभिन्नता को स्वीकार कीजिए। असहमति को आवाज उठाने वालों को कुचला जा रहा है जो लोकतंत्र के हित में नहीं है।

## सारसुर्खियां

### रेलवे अस्पताल को मिली हीमोडायलिसिस मशीन

गोरखपुर। ललित नारायण मिश्र केद्रीय रेलवे अस्पताल को हीमोडायलिसिस मशीन मिल गई। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने मशीनों का उद्घाटन किया। अपने उद्घोषण में उन्होंने कहा कि मशीनें रेलकर्मियों और उनके स्वजन के लिए उपयोगी साबित होंगी। अब मरीजों को डायलिसिस के लिए रेलवे अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन के बाद महाप्रबंधक ने अधिकारियों के साथ कोरोना टीका भी लगवाया। महाप्रबंधक के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मीना त्रिपाठी, प्रधान वित्त सलाहकार तनुजा पांडेय और प्रमुख मुख्य इंजीनियर सतीश कुमार पांडेय ने भी टीका लगवाया। महाप्रबंधक सहित सभी अधिकारियों को निर्धारित समय तक चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। इस मौके पर चिकित्सा निदेशक डॉ. उमेश कुमार, अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डा. नंद किशोर प्रसाद, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह और उप महाप्रबंधक कृष्ण चंद्र सिंह सहित समस्त अस्पताल स्टाफ मौजूद था।

### बसपा नेता सोहन सिंह की मां उम्मीदवार घोषित

अमरोहा। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने पक्षे खोलने शुरू कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पंचायत के कई वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वार्ड संख्या 8 से बसपा नेता डॉ सोहन सिंह की माता को चुनाव मैदान में उतारा है। रविवार को पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रदेश प्रभारी (पश्चिम उत्तर प्रदेश) शमसुद्दीन राहिली ने वार्ड संख्या 8 से श्रीमती रिसाल कौर ( डॉ सोहन सिंह की माता) एवं वार्ड संख्या 11 से श्रीमती मीनाक्षी ( निरंजन सिंह की पत्नी) को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव जी जान से लड़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

### प्रथम पेज के शेष

### आदिवासी बच्चों के शिक्षा व नौजवा की निःशुल्क व्यवस्था करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सोनभद्र जिला जनवरी से लेकर मध्य जुलाई तक पेयजल संकट से जूझता है लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा मिर्जापुर और सोनभद्र में हर घर जल की व्यवस्था की जा रही है स इस वर्ष के अंत तक ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल हर घर को मिलने लगेगा। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाएं मेहनती होती हैं तथा परिवार चलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का सामान अधिकार है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठे बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना सेवा कुंज आश्रम का मिशन है। उन्होंने कहा कि आश्रम द्वारा आदिवासी नृत्य कर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने एवं अन्य परम्पराओं को बचाने में बड़ा योगदान दिया जा रहा है।

# विश्व में 11.94 करोड़ लोग संक्रमित

26 लाख 47 हजार से अधिक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा, अमेरिका में दो करोड़ 93 लाख से अधिक संक्रमित

वाशिंगटन/रियो डि जेनेरो/नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वभर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 11.94 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 26.47 लाख से अधिक पहुंच गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 94 लाख 87 हजार 107 हो गई है, जबकि 26 लाख 47 हजार 950 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले

## रूस में नवंबर तक 70 प्रतिशत आबादी का हो जाएगा टीकाकरण

मस्को। रूस में नवंबर तक कोरोना वायरस (कोविड-19) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। यह दावा कोरोना वैक्सीन सूतनिक वी को विकसित करने वाली गमलेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर गिंसबर्ग ने किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि टीकाकरण की अनुमानित गति बहुत तेज हो सकती है। फिर भी मेरा मानना है कि नवंबर तक 60 से 70 प्रतिशत लोगों को टीका लग चुका होगा। यह संक्रमण टीकाकरण के माध्यम से देश में नियंत्रण में आ जाएगा।

अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर निरंतर जारी है तथा यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो करोड़ 93 लाख 99 हजार 486 हो

देशों में शामिल ब्राजील में अब तक एक करोड़ 14 लाख 39 हजार 558 लोग संक्रमित हुए हैं और 2.77 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 13 लाख 59 हजार 45 हो गई है। हालांकि यहां 1,09,89,897 मरीज कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। इसी अवधि में 158 और मरीजों की मौत हो चुकी है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,58,604 हो गई है। अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल चौथे स्थान पर रूस है। रूस में कोरोना वायरस से 43,31 लाख से अधिक लोग

# पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार

● हिंसक हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन

ब्रसेल्स, एजेंसी। बेल्जियम के लिए में ब्लैक लाइव मैटर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की तथा आंसू गैस के गोले दागे। आरटीवीएफ न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अफ्रीकी मूल की एक महिला की गिरफ्तारी के विरोध में लिये शहर में शनिवार को रैली शुरू हुयी। चैनल के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन कुछ समय बाद हिंसक हो गया। स्थानीय समय के अनुसार शाम चार बजे प्रदर्शनकारियों ने थाने पर तथा पुलिस के कारों पर पथराव करना शुरू कर दिया।

## सुरक्षा बलों ने चलाई गोलियां

नाएपीडी। न्यांमार में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसके कारण कम से कम छह प्रदर्शनकारी मारे गए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मांडले में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि दो प्रदर्शनकारी दक्षिण- मध्य शहर प्याय में मारे गए।

## चुनाव प्रचार को ढीलचेयर पर उतरीं ममता बनर्जी

एजेंसी

नंदीग्राम। चोटिल होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एएसएसएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्होंने दो दिन बाद छुट्टी ले ली है। पैर में चोट लगने के बाद भी ममता बनर्जी चुनावी मैदान में खड़ी हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के कुछ दिन बाद कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की चुनाव रैली में ढीलचेयर पर पहुंचीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी



रविवार को गांधी भारती से हजारों के लिए ढीलचेयर पर एक रोड शो कर रही हैं। इस दौरान ममता बनर्जी

## ममता बनर्जी मामले में सिक्कोरिटी डायरेक्टर सहित कई पर गिरी गाज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को बड़ा ऐक्यन लिया है। ममता बनर्जी के सिक्कोरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। पूरवा मेदिनीपुर के डीएम विष्णु गोयल का ट्रॉसफर कर दिया गया है। वहीं, एसपी प्रवीण प्रकाश को भी सस्पेंड किया गया है। विवेक सहाय को उनके पद से सस्पेंड करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जेड प्लस शरुख की सुरक्षा के लिए सिक्कोरिटी डायरेक्टर के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने की वजह से एक हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं। आयोग ने पूरवा मेदिनीपुर में विष्णु गोयल की जगह आईएसएस अधिकारी रिमता पांडे को डीएम और डीईओ पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गोयल को गैर-चुनावी पद पर ट्रॉसफर किया गया है। वहीं, पूरवा मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित करते हुए आयोग ने सख्त आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि बंदोबस्त की सुरक्षा में विफल होने के चलते उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं। आयोग ने पंजाब इंटीलजेंस के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार शर्मा को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।

## अख्यर ने बनाया भारत का सबसे बड़ा पावर बैंक रेंटल नेटवर्क 'स्पाइक'

नई दिल्ली। देश के डिजिटाइजेशन को एक बड़ा पुश देते हुए जस्टडायल के सह संस्थापक रमणी अख्यर ने अपना नया उद्यम स्पाइक लॉन्च किया है। यह एक स्मार्टफोन पावर बैंक रेंटल सर्विस है। अख्यर एक दूरदर्शी उद्यमी हैं, जिन्होंने जस्टडायल सहित कई भविष्य के कारोबारों की सह-स्थापना और नेतृत्व किया है। अब स्पाइक को दुनियाभर में सबसे बड़ी स्मार्टफोन पावर बैंक रेंटल सर्विस कंपनी के रूप में स्थापिक करने के मिशन मोड पर हैं। केवल 6 महीनों में स्पाइक ने भारत में सबसे व्यापक स्मार्टफोन पावर बैंक रेंटल नेटवर्क

## ● अपना नया उद्यम स्पाइक लॉन्च किया

हासिल किया है। पूरे भारत में 11 शहरों में 8000 स्थानों पर इसका नेटवर्क है। अख्यर एक जुनूनी उद्यमी हैं, जिन्होंने न केवल 1.8 बिलियन डॉलर मूल्य वाली जस्टडायल बनाने में मदद की है, बल्कि अपने स्वयं की फिलोसॉफी दिखाने के लिए कई स्टार्ट-अप की मेंटरिंग भी की है। वे अब स्मार्टफोन पावर बैंक रेंटल इंडस्ट्री में एक ग्लोबल कंपनी होने के लिए स्पाइक के विजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह एक तेजी से बढ़ता सेमेट है और अगले कुछ

वर्षों में इसका बाजार 15 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। स्पाइक का लक्ष्य बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना है, वहीं 'डिजिटल इंडिया', और 'स्टार्टअप इंडिया' सहित भारत की अन्य आकांक्षाओं का उन्साह बढ़ाना है। स्पाइक के वर्तिकल अपलिफ्ट के प्रति अपने आशावाद के बारे में बोलते हुए अख्यर ने कहा, हमें भारत में अवसरों और रूझानों को लेकर बेहद आशावादी हूं। तीन बड़े रुझान इस उद्योग को मजबूत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। डिजिटल / प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने में भारत बहुत खुला है।

## नए जमाने का अलफ़ा 1 कैमरा, प्रोफेशनल इमेजिंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत

नई दिल्ली। इमेजिंग सेंसर तकनीक और डिजिटल इमेजिंग में अग्रणी सोनी ने आज नए दौर के नए फुल-फ्रेम मिररलेस अलफ़ा 1 कैमरों को पेश करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। सोनी की जानी-मानी आटोफोकस तकनीक, ग्रेडेशन और कलर रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस के साथ अलफ़ा 1 उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम बारीकियों के साथ उनकी क्रिएटिव सोच साकार करने में मदद करेगा। इसकी 8 के फुटेज को पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान फ्लेक्सिबल 4 के एडिटिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। सोनी की रीयल-टाइम

कहा कि, फ़म अपने ग्राहकों की बात लगातार ध्यान से सुन रहे हैं और बाजार में उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर नवप्रवर्तन पेश करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। सोनी की जानी-मानी आटोफोकस तकनीक, ग्रेडेशन और कलर रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस के साथ अलफ़ा 1 उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम बारीकियों के साथ उनकी क्रिएटिव सोच साकार करने में मदद करेगा। इसकी 8 के फुटेज को पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान फ्लेक्सिबल 4 के एडिटिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। सोनी की रीयल-टाइम

## करोड़ों के प्लैट, सुविधाएं बुनियादी भी नहीं

नई दिल्ली। एक बेहतर आशियां के लिए लोग जिंदगी भर की कमाई और पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन जब वहां बुनियादी सुविधाएं भी न मिलें तो खुद को ठगा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। वयू डी ब्लाक पीतनपुरा की टॉवर हाइट सोसायटी की कहानी भी ऐसी ही है। डीडीए की इस सोसायटी में लोगों ने करोड़ों रुपये के एचआईजी प्लैट तो खरीद लिए लेकिन यहाँ छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। सोसायटी के अध्यक्ष मनोज जैन बताते हैं कि यहाँ एक लिफ्ट डेढ़ साल से खराब पड़ी है तो दूसरी में हमेशा पानी भर रहता है। उनका कहना है कि सोसायटी के मेन गेट पर अवैध पार्किंग शुरू हो गई है।

वहीं, पूरवा मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित करते हुए आयोग ने सख्त आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि बंदोबस्त की सुरक्षा में विफल होने के चलते उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएं। आयोग ने पंजाब इंटीलजेंस के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार शर्मा को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।

सुनवाई नहीं होती। वहीं सोसायटी के अध्यक्ष मनोज जैन का कहना है कि डीडीए के स्थानीय एक्सईएन नवनीत भाटिया से भी कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन उनके पास भी समय का अभाव है। अब सोसायटी के निवासी डीडीए मुख्यालय विकास सदन पर धरना देने पर मजबूर होंगे।



टैम्पो और ऑटो हर समय खड़े रहते हैं। शाम होने पर यहां लोग सिगरेट और शराब भी पीते हैं। आलम यह हो गया है कि यहां से महिलाओं का गुजरना दूधर हो गया है। मनोज जैन का कहना है कि और भी यहाँ हेरों समस्याएं हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। डीडीए दफ्तर में बार बार शिकायत दी गई है, लेकिन कोई

## नहीं पसीजे एसएसपी, गुलावटी में नए कोतवाल को थमाया चार्ज

भास्कर न्यूज

गुलावटी। जनपद बुलंदशहर के ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तमाम सिफारिशों को नजदअंदाज करते हुए गुलावटी कोतवाली का चार्ज तेजतर्रार विवेक शर्मा को सौंप दिया। नए कोतवाल विवेक शर्मा ने चार्ज लेते ही अपराधियों, गौकशों और मजनुओं को साफ चेतावनी दे दी कि अगर किसी को नानून तोड़ने की कोशिश की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने अपने मुखबिरो का जाल भी बुनना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात से भेजे गए इंस्पेक्टर विवेक शर्मा, पुलिस कप्तान की मंशाओं को हर हालत में पूरा करेंगे, ऐसा गुलावटी की जनता को उम्मीद है। काबिल-ए-गौर है कि रविवार की



नवांगत कोतवाल विवेक शर्मा।

सुबह कुछ लोगों ने कोतवाल सचिन मलिक के ट्रॉसफर होने पर कोतवाली पर जमकर हंगामा काटा और फिर कुछ लोगों ने सचिन मलिक का ट्रॉसफर रूकवाने के लिए आला अपफरों से जमकर गुहार लगाई, लेकिन ना ही दबाव और ना ही मिन्नत कोई काम कर पाई। कोतवाल सचिन मलिक करीब एक वर्ष से अधिक समय तक गुलावटी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रहे।

## असम की बात असम में शांति बहाल होने से बेहतर और कोई खबर नहीं हो सकती

# आतंकवाद और उग्रवाद कम हुआ : राजनाथ सिंह

एजेंसी/भास्कर न्यूज

गुवाहाटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि असम में आतंकवाद एवं उग्रवाद कम हुआ है, जिससे सरकार की विकास गतिविधियों को गति मिली है। यहां एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में शांति लौटी है और राज्य में गत पांच साल के भाजपा शासन के दौरान दर्जनों उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाले हैं। उन्होंने कहा, जब मुझसे विश्वासघाने को कहा गया तो वर्ष 2014 में हुई आदिवासियों के नरसंहार की घटना मेरे दिमाग में आई, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं। इलाके में शांति बहाल होने से



बेहतर और कोई खबर नहीं हो सकती। आदिवासियों की हत्या की घटना के समय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जब कार्यभार संभाला तो केंद्र ने

आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, असम के हालात में बहुत सुधार आया है। राज्य प्रगति के पथ पर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा नीत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के बड़े हिस्से को सील किया है और नदी सीमा वाले इलाके में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, हमने धुबरी से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा सील की है और जो थोड़ा हिस्सा बिना तारबंदी के रह गया है उसे भी भाजपा के असम की सत्ता में आने के बाद पूरी तरह सील किया जाएगा। त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार पड़ोसी देश से अवैध आतंजन रोकने के लिए कार्य कर रही है। रक्षा मंत्री विश्वनाथ सिंह से मौजूदा भाजपा

विधायक प्रमोद बोरठाकुर के लिए प्रचार कर रहे थे जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अंजन बोरा से है। इस सीट पर 27 मार्च को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा।





## एलडीए : बसंत कुंज योजना में शीघ्र पूरा होगा अपनी छत का सपना

जिलाधिकारी एवं एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 18 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा ब्योरा एलडीए की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। इसके बाद पत्र के माध्यम से भी प्राधिकरण आवंटियों को सूचित करेगा और फिर किस्तें बुकलेट में दी गई तारीख के अनुसार जमा करनी होंगी।



आशीष सिंह

लखनऊ। एलडीए के बसंत कुंज योजना अंतर्गत 250 आवंटियों का इसी माह अपनी छत का सपना पूरा होने जा रहा है। जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 18 मार्च को लॉटरी के माध्यम से आवंटियों के नाम निकाले जायेंगे। बताते चलते कि हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में भूखंडों के लिए एक फरवरी से

28 फरवरी के बीच पंजीकरण खोला गया था। 250 भूखंडों के लिए 3373 लोगों ने आवेदन किया। ऐसे में एक भूखंड पर 11 से अधिक लोग दावेदार हैं। जिलाधिकारी एवं एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 18 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा ब्योरा एलडीए की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। इसके बाद पत्र के माध्यम

18 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में पूरी कराई जाएगी लॉटरी की प्रक्रिया

## वसीम रिजवी, उनके भाई और धर्मगुरुओं में टनी

लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर रिवार को बवाल बढ़ गया। वसीम रिजवी ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को दोहराया। वसीम के भाई जहीर ने पलटवार करते हुए परिवार को उनके विचार से अलग बताया। वहीं इमामबाड़ा पर तमाम धर्मगुरुओं ने एकत्रित होकर वसीम रिजवी के खिलाफ जलसा तहफुज-ए-कुरान कर विरोध प्रदर्शन किया। रिवार को वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों पर अपना एक और वीडियो जारी कर कहा कि कुरान में जोड़ी गयी 26 आयतों को नये मुल्ला पढ़ाकर बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा मामला है और अपना हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। इन्हीं आयतों के कारण कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जुर्म किये गये। उन्हें कश्मीर से निकाला गया। उनके बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। कई जगहों पर धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुरान के भीतर साजिश करके अबु बकर, उमर और उस्मान ने जो आयतों को डाला है, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह किसी के खिलाफ जुर्म करने को नहीं कह सकता। उस्मान ने जिसे पूरी दुनिया में लागू कर दिया, उसे कहा जा रहा है कि इस कुरान के अलावा पूरी दुनिया में दूसरा कुरान नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान को लेकर हर तरफ हंगामा फेल गया है। हम एक तरफ है और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है। कल मेरा इतकाल हो जाये तो मेरे पास चार मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हमें कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं और जो साक्षी है कि एक आदमी ही जो एक की बात कह रहा है। मेरे बीबी, बच्चे, भाई मेरा साथ छोड़ चुके हैं लेकिन ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ा रहेगा। वसीम रिजवी के वीडियो जारी होने के कुछ देर के भीतर ही उनके भाई जहीर रिजवी ने वीडियो जारी किया। जहीर रिजवी ने कहा कि वसीम रिजवी पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वसीम का हमसे कोई संबंध नहीं है। वसीम का मां, बहन या किसी धरवालों से कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम रिजवी के खिलाफ बड़े इमामबाड़े में जलसा तहफुज-ए-कुरान हुआ। जलसा में शिया रहनुमा मौलाना कब्जे जवाबद में अपनी बातों को रखते हुए वसीम रिजवी के याचिका को महजब के खिलाफ करार दिया। जलसे में जुटे कई शिया और सुन्नी उलेमा व धर्मगुरुओं ने अपनी बातों को रखा। वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग की। जिसके बाद लखनऊ से लेकर देश के कोने-कोने में धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया है।

## सार संक्षेप

### नौकर ने दवा व्यवसाई के घर की थी लूट, नाबालिग समेत चार गिरफ्तार

लखनऊ। अलीगंज थाना पुलिस ने दवा व्यवसाई दिनेश अग्रवाल के घर हुई लूट का खुलासा पुलिस ने रविवार को कर दिया है। पुराने नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में नौकर समेत चार लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग है। पुलिस के अधिकारी ने खुलासा करने वाली टीम को 20 हजार रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस उप आयुक्त (उत्तरी) रईस अख्तर ने बताया कि बीते दिनों अलीगंज के सेक्टर बी निवासी दवा व्यवसाई का सूना मकान पाकर चोरों ने उनके घर से नकदी समेत लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया था। वहीं, गार्ड राकेश को बाथरूम में बंद करके लूटेरे भाग गये थे। पीड़ित ने पुराने दो नौकरों पर चोरी का शक जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। रविवार को पुलिस ने क्षमाशील उर्फ अमन, सचिन सुयश उर्फ अरविन्द और एक बाल अपराधी को दबोच लिया है। उनके पास से लूट का 4,25,200 रुपये और कार व अन्य चीजें बरामद की हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि क्षमाशील उर्फ अमन दवा व्यवसाई के घर पर नौकरी कर चुका है। उसने ही अपने साथियों की मदद से पुराने मालिक के घर पर चोरी की थी। पकड़े गए तीन अभियुक्तों को जेल भेजते हुए नाबालिक को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

## बैंक कर्मियों की हड़ताल का इंजीनियर्स फेडरेशन ने किया समर्थन

भास्कर न्यूज

लखनऊ। ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने निजीकरण के विरोध में 15 व 16 मार्च को हो रही दो दिवसीय बैंक हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण एक जन विरोधी कदम है। निजीकरण असामाजिक भी है। बैंकों को अब सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से निजी धरानों के लाभ की खोज में चलाया जाएगा। फेडरेशन ने कहा कि बेरोजगारी के कठिन दौर में बैंकों के

निजी बैंक न्यूनतम मानवशक्ति से काम चलाते हैं और कर्मियों को भारी मानसिक दबाव में काम करना पड़ता है

एआईपीईएफ ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के साथ-साथ केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के निजीकरण के लिए व्यापक नीति अपनाई है। एआईपीईएफ ने केंद्र सरकारों की निजीकरण नीति का पुरजोर विरोध करते हुए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के निजीकरण के फैसले और हाल ही में बिजली अधिनियम 2003 में संशोधन के कदम से निजी कंपनियों को राज्यों की वितरण प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति दी। एआईपीईएफ ने केंद्र सरकार की उस नीति की निंदा की जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्ण तरह खिलाफ है और कॉर्पोरेट धरानों के पक्ष में तैयार की गई है।

## कांशीराम की जयंती पर पदाधिकारियों को संगठन मंत्र देंगी मायावती

भास्कर न्यूज

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 मार्च को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती मनावेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पदाधिकारियों को संगठन का मंत्र देंगी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने रविवार को एक पत्रकार जरी कर 15 मार्च के कार्यक्रम की जानकारी दी। श्री मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च को लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित कार्यालय पर बामसेक, डीएस फोर और बसपा के जन्मदाता व संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर बहन मायावती उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। उन्होंने बताया कि बसपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती दिन के कार्यक्रम में 12 बजे पहुंचेंगी। वहीं मायावती



पत्रकारों से भी वार्ता करेंगी। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि मायावती विगत दिनों पार्टी पदाधिकारियों की एक दर्जन बैठकें कर चुकी हैं। जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं विधानसभा चुनाव 2022 के समीकरणों पर वृहद चर्चाएं हुई हैं। साथ ही प्रदेश में घटित घटनाओं पर भी पूर्व मुख्यमंत्री निरंतर नजर बनाये हुई हैं और हर घटना के पीछे उनके दृष्टि होते रहते हैं।


## लखनऊ विवि के 10 छात्रों का हुआ कैम्पस प्लेसमेंट

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव में 10 छात्रों का प्लेसमेंट प्रतिष्ठित कोर कम्पनियों में हुआ। इंजीनियरिंग संकाय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल इंचार्ज डॉ. हिमांशु पाण्डेय ने बताया कि जिनस ग्रुप कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तीन छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग के दो छात्रों एवं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक छात्र का चयन नेटवर्क एनालिस्ट इंजीनियर के पद पर और सिविल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक-एक छात्र का चयन डिजाइन इंजीनियर के पद पर तीन लाख प्रतिवर्ष पैकेज पर हुआ। साथ ही एम.सी.ए के दो छात्र सिंगसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर 2.28 लाख प्रति वर्ष पैकेज पर चर्चित हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक इंजीनियरिंग संकाय के 130 छात्रों का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित एवं मल्टी नेशनल कम्पनीज में हो चुका है।

## उत्तर प्रदेश में 1,851 कोरोना के ऐक्टिव मामले, 865 लोग होम आइसोलेशन में

भास्कर न्यूज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 96,162 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 3,27,57,452 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 178 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 1,851 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में 250 प्रति निवृत्त बताया कि प्रदेश भर में कोविड वैकसीनेशन का कार्य जारी है, मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बृहस्पतिवार आशियाणा कोवाली के अंतर्गत नाथ ज्वेलर्स लूटकाण्ड के लुटेरे का स्केच पुलिस ने किया जारी



किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जो को-मॉर्बिड 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जो 60 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी शर्त नहीं है वे अपना नजदीकी सेंटर पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 26,43,841 कोविड वैकसीनेशन की डोज लगायी गयी, इनमें से 20,30,600 व्यक्तियों को पहली डोज लगी है इनमें से 6,13,241 को दूसरी डोज लगायी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राइवेट चिकित्सालयों में रूपये 250 प्रति डोज निवृत्त की गयी है। 250 रूपये से अधिक पैसे मांगे जाते हैं तो जिले के सीओएमओ को सूचित करें। श्री प्रसाद ने बताया कि ग्राम निगारों की समिति, मोहल्ला निगारों की समिति, स्वयंसेवी संगठन एवं जन-प्रतिनिधियों से अपील है कि आपके आसपास जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें सेंटर पर ले जाकर उनका कोविड वैकसीनेशन का टीकाकरण अवश्य कराये, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।

## अभियान

क्राइम कंट्रोल अभियान के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को मिली बड़ी सफलता

## बीबीडी चौकी इंचार्ज ने गिरफ्तार किए दो कुख्यात तस्कर

भास्कर न्यूज

लखनऊ। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम कंट्रोल अभियान के तहत लखनऊ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर डी के ठाकुर वा पुलिस उपायुक्त पूर्वी संजीव सुमन के दिशा निर्देशों पर काम कर रही थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा रविवार को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक किलो अवैध स्मैक जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग एक करोड़ रुपये, एक किलो, 400 ग्राम अवैध गांजा समेत एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। यह गिरफ्तारी फैजाबाद रोड स्थित रामसरूप स्कूल के पास से की गई है। प्रभारी निरीक्षक थाना चिनहट धनन्जय कुमार पांडेय के नेतृत्व में काम कर रहे एस आई अजय शुक्ला और एस आई विनय तिवारी ने मुखबिर की सूचना पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एस आई अजय शुक्ला वा इस आई



अजय शुक्ला, एसआई

विनय तिवारी मय हमराह फैजाबाद रोड स्थित रामसरूप स्कूल के पास तैनात थे। तभी बीबीडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आकर मुखबिर ने उन्हें

सूचना दी कि दो व्यक्ति पंजाबी ढाबे से पहले किसान पथ पर सर्विस लेन के पास एक सिल्वर होण्डा सिटी गाड़ी के साथ खड़े हैं। मुखबिर ने पुलिस को बताया कि इन दोनों व्यक्तियों के हाथों में एक-एक झोला है जिन्में मादक पदार्थ हैं और वो इन्हें बेचने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही एस आई अजय शुक्ला वा एस आई विनय तिवारी ने पुलिस फोर्स के साथ उक्त स्थान पर दबिश देकर तस्करों को मौके से मादक पदार्थ वा तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तस्करों की पहचान हुई जिनमें से तस्कर आकाश मिश्रा (29) बाराबंकी जनपद के जैदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और दूसरा अजय गुप्ता उर्फ प्रिंस (28) धगसरा बाजार थाना सहजवादी जनपद गोरखपुर का निवासी है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है जिनमें

## नाथ ज्वेलर्स लूटकाण्ड के लुटेरे का स्केच पुलिस ने किया जारी

आशियाणा कोवाली के अंतर्गत नाथ ज्वेलर्स लूटकाण्ड में सूत्रों के हवाले से एक लुटेरे का स्केच जारी किया जा रहा है। लुटेरों का सुराग बताने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा और उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। जानकारी देने वाले व्यक्ति इन नम्बरों पर सूचना दे सकते हैं। एडीसीपी ईस्ट लखनऊ - 9454458038, एसीपी कैंट लखनऊ - 94544005234, थाना प्रभारी आशियाणा लखनऊ - 9454403841

उनके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में गम्भीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर के निर्देशन में काम कर रही लखनऊ पुलिस को लगतार क्राइम कंट्रोल में सफलता मिलती जा रही है। जिसकी सराहना हर किसी की जुबान पर है।

## एसटीएफ ने बस्ती से पीएफआई के ट्रेनिंग कमाण्डर राशिद को किया गिरफ्तार

लखनऊ। गोरखपुर की एसटीएफ टीम ने रविवार को बस्ती रेलवे स्टेशन से सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ निवासी राशिद अहमद को गिरफ्तार किया है। राशिद अहमद पर आरोप है कि वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लिए काम करता है और ट्रेनिंग कमाण्डर की भूमिका निभाता है। उसके पास से जो दस्तावेज व साक्ष्य मिले हैं उससे यह पता चला है कि राशिद देश की अखण्डता और सामाजिक विघ्नेष फैलाना चाहता है। इसके साथ अपने आतंकी साथियों के साथ हिन्दू संगठनों से जुड़े नेताओं पर हमला भी करने की फिराक में था। एसटीएफ प्रवक्ता के अनुसार एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि पीएफआई के कुछ सदस्य आपराधिक षडयन्त्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखण्डता को चुनौती देने जा रहे हैं। गिरोह के सदस्य देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विघ्नेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियारों एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिलाकर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसके साथ ही प्रमुख हिन्दू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर हमला करने की भी योजना थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के कई राज्यों में अपने सदस्य बनाकर उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। पुलिस पकड़े गये युवक से पूछताछ कर रही है।